

२६ जनवरी, सन् १९४८ ५७

तीसरा [३] पुष्प

मूल्य—एक रुपया

रत्नगढ़ (राजस्थान)

—: प्रकाशकीय :—

स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र युग में आज कई साहित्य संस्थाएं अपना प्रगतिशील प्रकाशन कर रही हैं, जिससे कि देश में आज साहित्य-प्रगति का प्रवाह एक सांस्कृतिक क्रांति को लेकर प्रस्फुटित हो रहा है। यह हमारे राष्ट्र का स्वर्णप्रभात है और इसी सुन्दर वेला ने 'आदर्श-साहित्यसंघ' को जन्म दिया है।

भारतीय सांस्कृति और जैन-दर्शन के अनुकूल आदर्श धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य का प्रगतिशील प्रकाशन आदर्श-साहित्यसंघ का मुख्य ध्येय है। और इसी ध्येय को लेकर संबंध अपनी एक विस्तृत योजना के साथ भारताय राष्ट्र में एक ऐसे साहित्य की कल्पना रखता है जो राष्ट्र के नैतिक आत्मिक और सांस्कृतिक जीवन को बल दे सके और युग की सभी चिचारथाराओं का समन्वय करते हुए जन-मन में आधात्मिक शक्ति का सञ्चय करने में सफल हो सके, जिसका कि आज के साहित्य में अभाव सा है। जिसके कारण हमारे राष्ट्र की नैतिक व आत्मिक शक्तियाँ छिन्न-मिन्न व एक दूसरे ही प्रवाह में वही जा रही हैं। जिनका निरोध ऐसे ही साहित्य के आविर्भाव पर सम्भव है। जो हमारे स्वतन्त्र मानसिक विकास को कुँठित न करते हुए उसे वस्तुतः प्रगति पर संगठित कर सके। इस दिशा में यह एक प्रयत्न मात्र है। जो हम अपने पाठकों के समझ रख रहे हैं। आशा है, सहृदय पाठक और आत्म जिवासु इसका स्वागत कर हमें प्रोत्साहित करेंगे, तो निसंदेह संघ आपकी सेवा करने में समर्थ हो सकेगा।

साहित्य मन्त्री
आदर्श साहित्य संघ

६- धन, वल, एश्वर्य, विद्या आदि अपनी विशेषताओं के कारण किसी को अपने से नीच नहीं समझना चाहिए ।

७- जाति व्यवस्था अस्थायी है । भिन्न भिन्न समय में उसमें परिवर्तन होता रहता है । स्पृश्य और अस्पृश्य का परिवर्तन तो हमारी आँखों के सामने है । एक अछूत मुसलमान या ईसाई होने के बाद स्पृश्य हो जाता है । अतएव यह सब अतापविक है ।

१- जाति व्यवस्था के विषय में विलोकनीय जैन साहित्य का कुछ संकेत—

१- जैन सिद्धान्त दीपिका, सूत्र २३, २४ और २५ श्री तुलसीरामाचार्य विरचित ।

२- उत्तराध्ययन अध्ययन २५ गाथा ३१, ३२ और ३३ ।

३- उत्तराध्ययन अध्ययन १२ गाथा १४ वर्ण ।

४- आदिपुराण अध्याय- इष्ट श्लोक ४६ आचार्य जिनसैन रचित ।

— आँखें तोलो —

आमुखः

सुख और दुःख आपस में विरोधी तत्व हैं । मनुष्य की सहज प्रकृति में सुख की अकांक्षा होती है, और दुःख की अनि�च्छा । मनुष्य का चरम लक्ष्य सुख को प्राप्त करना ही है । वर्त्ते के प्रत्येक महामुख्य ने सुख का मर्म समझाने का सफल प्रयत्न किया है और जन साधारण ने, उनकी वाणी को अपनाने का । जन साधारण में सुख क्या है? वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न सदैरिर रहे और आज भी हैं । युग के मुख्य व्यक्तियों ने इनका समाधन किया और करते भी हैं । साधारण लोगों के शब्दों में अनुकूल वेदना ही सुख है । अर्थात् जिस अनुभव को प्राणी अपने अनुकूल समझे वही सुख है ।

नीति शास्त्रज्ञों के शब्दों में अपने हितों की रक्षा करना एतदर्थी भाँति भाँति की देष्टाण करना या करते रहना ही सुख है । अध्यात्मदिव्यों की वाणी में प्राणियों का वह आहलाद जिससे दूसरों का कोई नुकसान न होता हो हिंसा आड़ि का आचरण न होता हो, सुख है । नंति की हृषि में योग सामग्री को प्रवंल करना, आवश्यकताओं को बढ़ाना, साम्राज्य का विस्तार करना, एक छूत शासन जमाना अपना ताज सबसे ऊँचा रखना, अपने हितों की रक्षा के लिये दूसरों के हितों को कुचल डालना, आर्थिक धरांतल को ऊँचा उठाना, स्वजाति, स्वकुल, स्वकुदुम्ब का मंहत्व बढ़ाना इस कोटि के कार्य सुख के साधन हैं । अध्यात्म पंडितों ने मन और वाणी को पवित्र रखना, सब प्राणियों को आत्म तुल्य समझना (अहिंसा) व्यवहार में, बोल चाल में और काम

काव में आनंदजुना को समान करना (सत्य) परकीय अधिकारों का अपहरण नहीं करना (अत्योदक) आनंद सत्य की दक्षा करना (ब्रह्मचर्य) आवश्यकताओं को घटाना (लग्नोद) इनको तुच्छ का साधान नाही है।

कैरि : — तै जी नर्तनैल दोग्गद्वाँ ने महीनी आकांक्षा एवं नहा अत्यन्त बड़ाने में सुख का दर्शन किया। और इनके विचार दुःख का अव्याप्त शास्त्रियों की बारी ने सुन्न का दर्शन महाकांक्षा दर्शन महारंभ के अल्पकरण ने किया है और इनके अनाव में दुःख का। इन दोनों परंपराओं का टीक वैसः ही विरोध है जैसा कि सुख और दुःख का। जनना का लुकाव जितना वित्तोम मार्ग की ओर हो सकता है उनना अदुर्घट पथ की ओर नहीं। चैकि वित्तोम नारी में स्पष्ट प्रतोभन है, तड़क भड़क है, आमोहक आकर्षण है, सदको लतचाने वाली कल्पनाएँ हैं और आंखों को अलैक-हाँन बनाने वाली अधिनारी है। अदुलोभ मर्ग का दनाव संविधान-संविधान है। पैर ! जो कुछ हो हमें दोनों का परिष्ठ प्रिहारना चाहिये। परिष्ठ में जो टीक उतरे सुखार्दी इकाए का तन्त्र होना चाहिये। खाल खुलर्ती के आनोद का आनिरी फल कहु है। आमागुर की नाताकर्ता ने अच्छे से अच्छा गरिष्ठ भोजन भी हानि जनक होगा। आवश्यकताओं को बड़ाने का, कुटिलप्रक्रों का, वक शुभाने का, एवं दूसरों के अधिकारों को नोचने का भद्र वह परिष्ठ द्वा आज भी हमारी आंखों के सामने नहीं। “गई लो गई अदर रही को” के अनुसार अद भो चेतना चाहिये। गहरी प्रवाह के अदुसरए लै क्या होगा। नदुम लूँवे नहीं हैं जो हाँ वो हाँ की प्रतिष्ठनि किया करें। एक मार्ग के बुरे

[४]

परिणामों को देखकर अवश्य ही दूसरे पथ की शरण में जाना चाहिये। उसे परखना चाहिये। वह पथ अकांक्षाओं एवं आरंभ को कम करते हुए चले जाने वालों का है। उसका अभ्यास कठिन है पर परिणाम सुन्दरतम्। वस्तुतः यदि सुख की ओर आगे बढ़ना है तो निश्चन्त रूपेण इस पथ पर पैर बढ़ाने होंगे। अन्यथा सुख की कामना सफल न हो सकेगी।

—मुनि नथमल

श्रीमती शाला संगीते द्वारा
रत्नगढ़ (राजस्थान)

आँखें-खोलो

-; क्रम-सूचि :-

पृष्ठ

१—	अध्याय पहला—जैन संस्कृति की नींव	१
२—	“ दूसरा—जैन संस्कृति का सामाजिक रूप	१७
३—	“ तीसरा—अहिंसाधार	४३
४—	“ चौथा—अपरिप्रह्याद	५६
५—	“ पाँचवा—भोग्य विरतिधार	६३



श्रीमती वाल सभा जैन युस्तुकान्दव
रत्नगढ़ (राजस्थान)

[?]

जैन संस्कृति की नींव

परिवर्तन का अटल साम्राज्य चिश्व के अंचल तक व्याप्त है। वह क्यों और किसलिए? इसके समाधान के लिये हमारे पास कोई एक ऐसा सीधा एवं पर्याप्त साधन नहीं जिससे हम उसकी (परिवर्तन की) असीम भाव राशि को सीमावद्ध कर सकें। वह मानव समाज की ...। ग्राणी मात्र की नहीं, पदार्थ मात्र की सच्चा में व्याप्त है। उसकी अविच्छिन्न सच्चा ने चिश्व के नाटक के मंच पर ला खड़ा किया है। मानव वर्ग की बाणी में, भवना में और कर्म में उसका एकाकार अधिपत्य है। काल चक्र उसका एक अनन्य साथी है। काल की अतुल महिमा उसे विश्ववन्द्य महामहिम बना रखा है। हाँ- यही तो कारण है कि आज आध्यात्म मूर्धन्य भारत भूमि की धर्म प्रधान भावनाएँ विकास्त हो उठी हैं। वीमत्स रस की तरंगों से नाच उठी हैं। जिस भूमि ने धर्म के अनन्त महात्म्य के साथ अपना सार्वभौम समृद्ध लप

देखा था वही आज उसकी व्योपकता में संदिग्ध है । क्या इसे परिवर्तन चक्र का हेतु नहीं कह सकते ।

धर्म ने हमारा सांस्कृतिक चिकास किया था । धर्म से हमने आचार एवं विचार विशुद्ध और परिपक्व बने थे । धर्म के प्रभाव से ही हमारी सम्मता आज की वर्षर पवं घातक सम्मता से कोटि कोटि अधिक मूल्यवान् थी । क्या उन्हीं के दिल में उसी के प्रति भलानि और कहु अविचार पूर्ण प्रलाप ? यहीं तो विचारों का धुंधलापन है । सोने की थाली में मेल है । हमें कहांना होगा कि अदूरदर्शियों ने धर्म को मुला कर अपने आपको धोखा दिया है । एह अमूल्य स्वर्गार्थ निधि को खो वैठे हैं । आज उन्हें विपक्ष घातावरण से गुजरना पड़ रहा है । मैं समझता हूं कि मैं भावहृ के प्रवाह में बह रहा हूँ । मुझे वापिस उसी मध्य विन्दु पर आना होगा । जहां से धर्म को मुलाने का प्रश्न उठा है सीधे सीधे लोगों ने धर्म को नहीं मुलाया । धूर्णों के भाव पैदा नहीं किये । यह सब उन स्वर्थ पुजारियों की ही लीला है । जिन्होंने अपने स्वार्थ को साधने का सर्वसे सीधा एवं सरलता उपाय धर्म को ही पाया । धर्म के नाम पर मनमानी करने में संकल बने ।

— अंगें खोलो —

धर्म को कलह कदाग्रहों का अन्वाहा बना दिया। जिस धर्म का उद्दग रथान मैथी का लोत है उसके नाम पर ईर्ष्य के वीज चोरे। भोले भाले लोगों को गुमराह किया। तब हो तो धर्म के नाम से ब्वराहट है, लोगों को अप्रेम और अथद्वा है। अन्यथा धर्म जैसी अन-मोल वरनु की कदों इस प्रकार कदर्थना की कांग में बाढ़ी बनना पड़ता? क्यों व्यर्थ के असेहों का भार मिर पर होता पड़ता? और क्यों वह जन साधारण के विवरों से मुहूर रोहता? स्वाथे साधुओं दी कली छाया इतनी व्यापक न बन पाती तो धर्म का आनंद गौरव इस प्रकार निम्न दशा का अनुभव नहीं कर कर पाता। इतिहास भी दूसरे ढंग का उपलब्ध होता। यवरेता के बाले चित्र गौरव से बाहर न निकल पाते। हमें आज कुछ और ही देखने को मिलता। हमारी अदिसा प्रधान संस्कृति के वीज शिश्व वाटिका को पक्षवित किये नजर आते। सच्चाई के प्रल जीवन के पल पल में फिलते। पर वस्तु दृढ़पने की चेष्टा नामं शेष रह जाती। ब्रह्मवर्य का अखण्ड तेज दिव्य ललाट स्थली पर चमकता। सन्तोष से मुख के भरने भरते। इति-दांस की कोई भी पंक्ति कलह को काली रेखा से खंचित

— आंखें खोलो —

न हो पाती । पर ऐसा हो कैसे ? इससे पेटायियों के पेट पल नहीं सकते । स्वेच्छा ध्रुति का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता । इसीलिए नो उन्होंने धर्म दैसे कोमल एवं मैत्री-ग्रन्थ एवं धर्म को कलह, ईर्षा एवं नरमेध जैसे हिस्सक स्थलों में प्रयोग करने योग्य उत्तेजक शब्द बनाया । उसके कहु परिणामों से उपद्रव जन उससे दूर रहने में ही अपना भला समझते लगे और धर्म का महत्व आंखों से ओकल होने लगा और आज भी वही दशा है, वही उलझन और व्यधन है । और वही संशय है कि धर्म देश समाज या किसी समूह विशेष का पतन या ह्रास हुआ है । इन प्रकार सोचने वाले ऐतिहासिक सत्य से भी आंखे मुँद लेते हैं । इतिहास इमें बताता है कि किसी का भी पतन हुआ वह पारस्परिक द्वेष या व्यर्थ के भूते धार्मिक आडम्यर से हुआ असली धार्मिक नियमों के अनुशीलन से नहीं । अतः एवं इस आन्ति का मूलोच्छेद कर उसकी परस्त के लिए हमें एक दृष्टि हालनी चाहिए ।

जहां तक हो सके उसे जीवन संस्कृति का आधार शिला मान कर जीवन का स्तर ऊँचा और आदर्श बनाना चाहिए । उन्नत संस्कृति से अनुग्राहित समाज

— आंखें खोलो —

एवं राग्र उन्नत होगा । संस्कृति का प्रभाव अचूक है मानव समाज के आचार एवं विचार उसके अनुयायी हैं । देशकाल की मिथ्या से वह परिवर्तित होती रहती है । राज्य एवं धर्म व्यवस्था के परिवर्तन के साथ भी उसका गाढ़ा सम्बन्ध है । जिस समय जिनका उत्कर्ष काल होता है । उनके विचारानुकूल वह भी नवजीवित होती रहती है । उसके नवीकरण से उसमें अच्छाई आती है या बुराई यह सब कुछ यहुलाँश में तत्कालीन परिस्थितियों पर दी जिभें है । एक परिस्थिति में जो व्यवस्था उपयोगी होती है वह उसी परिस्थिति में अनुपयोगी हो जाती है और ऐसे ही अनुपयोगी की उपयोगता वह जाती है । अतएव दृम अपेक्षावाद के अनुसार यह कहने के लिए असमर्थ है कि प्राचीन संस्कृति बुरी है और धर्ममान की अच्छी अधिका प्राचीन अच्छी है एवं आज की बुरी । कविवर कालीदास ने भी इसी आशय से लिखा है—

पुराण मित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नव मित्य वध्वे
सन्तः परीक्षान्य तरद् भजन्त, मूढः पर प्रत्ययनेय वृत्तिः ॥१॥

सन्त लोग परीक्षा के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु के गुण दोष का विवेक करते हैं । लाभकारक वस्तु को अंगीकार करते हैं एवं हानिकारक को त्यागते हैं । संस्कृति का गुण

— आंखें खोलो —

या दोष उसे परीक्षा की कसौटी पर कहने से ही प्रतीत हो सकता है। परीक्षित पदार्थ अधिक विश्वत बन जाता है। परीक्षा प्रणाली का आर्यमात्र क्यों हुआ ? इसका ऐतिहासिक शोध से यही पता चलता है कि विभिन्न विचारों के समुदाय में रहने वाला मनुष्य किसका अनुगामी बने वह एक सामूहिक प्रश्न उठा और ताफिकों ने इसका उत्तर परीक्षा के रूप में दिया। परीक्षा का 'लक्षण जैनाचरण' ने इस प्रकार किया है—“नाता विरुद्ध युक्त ग्रावंलयं दीवंलयाव धारणाय वर्तमानो विचारः परीक्षा” अर्थात् जानाप्रकार की दिनोधी युक्तियों की प्रवलता एवं दुबलता के निर्णयार्थ जो विचार किया जाता है, वह परीक्षा है। विद्वान् मनुष्य परीक्षा के पश्चात ही किसी के सामने न त मस्तक होता है, अन्यथा नहीं। संस्कृति के गुण दोष की परस्परना तत्ववेत्ताओं का कर्तव्य है, केवल वर्तमानिक अनुसरण ही नहीं। यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जासकता कि किसी भी संस्कृति के प्राधान्य में सबके सब मनुष्य लेखादर्श एवं संचारित्र ही बने थे। इतिहास में उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट दोनों वरह की भेणियाँ उपलब्ध हो रही हैं। परन्तु किसकी मात्रा कितनी रही, यह संस्कृति का परीक्षण है—कसौटी है।

— अंतिम खोलो —

भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति प्रधानतया तीन दर्शनों में अवतरित हुई, जैसे जैन संस्कृति, वैदिक संस्कृति एवं वौद्ध संस्कृति । वैदिक संस्कृति एवं वौद्ध संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले बहुत ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जैन संस्कृति के सम्बन्ध में निःसङ्कोच यह कहना पड़ता है कि उसके विशाल गौरव को दिखाने वाली पुस्तकें वर्तमान साहित्य में नहीं के समान हैं । परिस्थितियों की जटिलता से स्वयं जैनी भी इस विषय में प्रायः उदासीन से रहे । किन्तु अब समय की प्रगति ने उन्हें इस और प्रेरित किया है और पुनः एक बार अपने अंतीम के उद्देश्वर गौरव को प्रवतित करने का सङ्केत किया है । हम जैनियों का यद्य कर्त्तव्य है कि हम उसके तथ्य को गणयमान्य तत्त्वशों के समक्ष रखें, उसके रहस्य को प्रकट करें । 'साधारण जनता' को उसके 'महत्व' को समझावें और स्थिति को 'सुलभाने' का एक वलवान प्रयत्न करें । इसमें हमारा लाभ है और सबका लाभ है । जैन विद्वानों का व्यापक 'दौष्टकोण' सदा 'से' ही स्पादवाद की 'ओर' आकृष्ट रहा । उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा बहु सब उसी के आधार पर । इस विशाल दृष्टि के कारण उन्हें बहुत सी समस्याओं को 'सुलभाने' में सफलता मिली । अनेकान्त के अनुसार वे 'एक वस्तु' को 'अनेक दृष्टियों से परख सकें । अपेक्षा के

— आंखें खोलो

प्रयोग से विरोधाभास को मिटा सकें। उन्होंने विश्व को द्रव्य ध्रुवता की अपेक्षा अनादि अनन्त पर्व विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन की अपेक्षा सादिसान्त बतलाया।

उनकी विशद विचार रण्शि के अनुसार जगत का रचयिता कोई भी नहीं है। प्राणी अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है एवं स्वयमेव तत्फल भोगता है। इन सब कामों के लिए एक असीम शक्तिशाली ईश्वर की कल्पना करना बिलकुल व्यर्थ है। आत्मा और परमाणु पिण्ड के संयोग से इन सबका सघडन और विघटन होता रहता है। आत्मा को वाह्य प्रकृति पर विजय पाने से भौतिक सुख का अनुभव होता है। अन्तर प्रकृति कोध मान, माया एवं लोभ पर विजय पाने से आध्यात्मिक सुख का द्वार खुल जाता है। याकृत् आत्मा स्वयं परमज्योतिर्मय सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा बन जाती है। इसमें ज्ञान का उत्कृष्ट विकास अपेक्षित है। ज्ञानो मनुष्य का पथ अवाध हो गा है। वह पथभ्रष्ट नहीं होता । जैसे धागा पिरोई हुई सुई कचरे में पड़ जाने पर भी गुम नहीं होती वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रह कर भी आत्म स्वरूप को नहीं गवाता। ज्ञान की भाँति पुरुषाथे

१—उत्तराध्ययन ।

आँखें खोलो —

चतुष्ट की विजय ही है। उसका फलित रूप अहिंसा है। वही धर्म है। अतएव हम जैन संस्कृति को धर्म-प्रधान या अहिंसा-प्रधान संस्कृति कह सकते हैं। ऐसी संस्कृति ही सुखद संस्कृति हो सकती है और मानव समूह को मैत्री के एक सूत्र में सँगठित कर सकती है। सभ्यता की गोद में बैठा सकती है। हमारा उद्देश्य धर्म को संस्कृति का विशेषण बना ही नहीं है। उसका उच्चारण करना ही हमें आवश्यक प्रतीत नहीं होता। हमें तो वैसे मैत्री के प्राणभूत आचरणों की आवश्यकता है जिनमें अहिंसा धर्म की पुट हो सत्य धर्म की भावना हो। इस दशा में धर्म की अवहेलना है। क्या यह वुद्धि का वैषम्य नहीं? गड्ढी प्रवाह का इससे बढ़ कर और ज्वलन्त उदाहरण क्या होगा? अथ चेतने का समय है, आखें मूँदने का नहीं।

विश्व किधर जा रहा है? किस प्रकार आपत्तियों को आहान् कर रहा है? पशुता को चुनौती दे रहा है? मानव को अभिशाप का भूतल बन रहा है? विश्व सँहार करने को तुला हुआ है? आज किसका दिल संदिग्ध नहीं? कौन किस पर विश्वास करता है? कौन किसे अपना मित्र समझता है? सब अपने-अपने स्वार्थ की रट में हैं। इधर स्वार्थों की टक्कर में मिश्रता की धज्जियाँ उड़ रही हैं तो उधर

— आंखें खोलो —

गति का नाश होता है और लोभ से इहलोक तथा परलोक में भय होता है । ३ जो पुरुष कोधी है सब जगह दोष ही दोष देखता है, शान्त कल्ह द्वा को पुनः उत्तेजित करता है, वह पापान्मा सदा अशान्त रहता है और सङ्कीर्ण पथ पर चलने वाले अन्धे पुरुष की भाँति पग-पग पर दुःख पाता है । ४ आत्मा के हित को चाहने वाले पुरुष को इन चार महादोषों को त्याग देना चाहिए । ५ इनकी विजय के चार प्रमुख उपाय हैं—यथा कोध के लिए उपशम, मान के लिए ब्रह्मता-कोमलता, माया के लिए सरलता और लोभ के लिए सन्तोष । ६

इनकी विजय, अंसली प्रकृति की विजय है । इससे सच्चा सुख, सच्ची शान्ति तथा सच्ची सुविधाएँ मिल सकती हैं । इस महा विजय के पश्चात् वाहा प्रकृति में सुख-दुख देने को कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता । अन्तः प्रकृति की विजय के आधार स्तम्भ पर खड़ी की हुई मानव संस्कृति की गगनचुम्बी अद्वालिकाएँ सर्वोच्च और आदर्श बन जाती हैं । जैन संस्कृति के महो ग्रन्थ का प्रारम्भिक पृष्ठ यही कथाय

४-सूत्र कृतांग अ० १३ गा० ५ । ५-द० अ० ८ गा० ३८ ।

३-उत्तराध्ययन अ० २ गा० ५४ । ६-द० अ० ८ गा० ३९ ।

— आंखें खोलो —

की एक सांस ली है और न शान्ति की गोद में दुख को भूला देने वाली लम्ही नींद। आज भी वह ज्यों का त्यों मूल की अवस्था में भूला-भटका सा चक्र लगा रहा है। धुन को साध रहा है। सुख के लिप उभरता हुआ दुःख के अनन्त गत्ते में छूवा सा जा रहा है। क्यों? तो कहना होगा कि उसने अपनी असली प्रकृति पर विजय नहीं पाई। असली सुख को, उसके साधन को पहचानने में असमर्थ रहा। उसका पर्यवेक्षण अधूरा रहा। वह दुख की जड़े दिला नहीं सका, प्रत्युत उनके तले अपने गतिशील पैर रोप दिये।

इस दशा में उसको जितेन्द्रिय संस्कृति की आवश्यकता है। जितेन्द्रिय संस्कृति का प्रसुख कार्य प्रकृति-विजय है। मनुष्यों की आन्तरिक प्रकृति क्रोध, मान, माया और लोभ है। अजित क्रोध एवं मान, वृद्धि प्राप्त माया एवं लोभ जन्म पत्यु के बृद्धि को सींचते हैं। हरा-भरा रखते हैं। १ क्रोध प्रेम का नाश करता है, मान नम्रता का, माया मैत्री का और लोभ सब सद्गुणों का। २ क्रोध से मनुष्य नोचे गिरता है, मान से अधम गति को पाता है माया से सद्-

१-द० अ० द गा० ४०।

२-द० अ० द गा० ३७।

— आंखें खोलो —

का स्थान भी वांछनीय है। इन दोनों का महत्व इनके सम्मिश्रण में है, विभाजन में नहीं। इनकी सापेक्षवृत्ति हमारे सत्कार्य का प्रमुख साधन है और निरपेक्ष वृत्ति साधना को पूर्ण करने में असमर्थ है। इसका सार इतना ही है कि ज्ञान से मनुष्य जानता है और पुरुषार्थ से करता है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का ज्ञान अधिक विकसित होता है। अतएव वह दूसरे सबकी अपेक्षा कार्यकुशल कार्यश्रम एवं प्रकृति विजयी होता है।

मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। उसकी तोड़ भाँज की है। हस्तलाघव का परिचय दिया है। जीवन के हर एक कार्य में विद्युत् शक्ति का प्रयोग किया है। नदी, पर्वत, खानज प्रमुख्य प्राकृतिक पदार्थों का अगणित प्रकारों से व्यवहार किया है। मानवोष पेश्वर्य को पराकाष्ठा तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। यदि पूङ्गा जाय कि यह सब क्यों किया तो उत्तर यही होगा कि सुख के लिए, शान्ति के लिए और सुविधा के लिए। यदि पूङ्गा जाय कि यह सद्गुरुसे हुआ-मानवीय वैदिक विकास से और पुरुषार्थ से। आज प्रकृति उनकी अनुचरी है। इशारे पर नाचने वाली है। सुख सुविधा के मिस से उन्हें जड़ एवं कियाशून्य बनाने को तुली हुई है। अतएव प्रकृति-विजयी मानव ने न तो सुख

— आंखें खोलो —

उनके सुवधार स्वायों के पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या जाने अभी और क्या २ होना है? वर्तमान संस्कृति के परिणाम और कितने कड़े होंगे? यह आज नहीं पहा जा सकता। इसका पूरा फल तभी मालूम होगा जब यह चर्म सीमा पर पहुँच सकेगा। भावी संतति इसे अभिशाप समझेगी और अपने पूर्वजों की दुद्धि पर एक गहरी आद मरेगी। वे राजनैतिक, वे अर्थशास्त्री और वे मानव रक्त के प्यासे सेनानी क्या यह नहीं जानते कि देवल लालसा के चड्डुल में फँसकर भोली भाली जनता को दुःख के गढ़े गढ़े में ढकेलने जा रहे हैं? थोड़े जीवन के लिए खून की नदियाँ बहाने जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार राजनैतिक कुटिलता का सीमाकान्त चक्र चलता रहा, अर्थ संग्रह की रात्रिकी वृत्तियों को मङ्काने वाली शिवापं मिलती रही, घृतक अन्नों के आविष्कार होते रहे तो स्वन में भी शान्ति के दर्शन न होंगे। यह अचूक और अमर भविष्य वाणी एक दुद्धि मान पुरुष नहीं एक नौ सिखुआँ छात्र भी कर सकता है। आज भी राजनैतिकों अर्थशास्त्रियों परं सेनानियों को जग की भलाई के लिए अपनी उछाल वृत्तियों को त्याग देना चाहिए। यदि इस प्रकार की दुःखद राजनीति, अर्थशास्त्र

— आंखें खोलो —

और युद्ध कलओं का विकास न हो तो मानव समाज को कोई हानि नहीं प्रश्युत लाभ देगा। यह आज की अपेक्षा अधिक रुखी नहीं बन सकेगा। यह सब तभी सम्भव होगा जबकि 'दुनियाँ धर्म' की असलीयत को समझेगी। उसके आधार पर पुनः अपनी संस्कृति का नव निर्माण करेगी।

धर्म की परख साधारणी से करनी चाहिए। चूंकि धर्म सीमावद्ध है, किसी भी हालत में भी धर्म और अधर्म का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। इन दोनों का सम्मिश्रण प्रत्येक काय में मनुष्य को उलझन में डाल देता है। ऐसी स्थिति में साधारण जन उसका निपटारा नहीं कर सकते। वहुधा ऐसे करणों से ही धर्म वाह्य आडम्यर में चल पड़ता है। धर्म और अधर्म के बीच हमें एक ऐसी भेद रेखा खींच देनी चाहिए जिससे ये दोनों किसी तरह भी एक न हों सकें। हमारे आचार्यों ने इस प्रश्न को बड़ी खूबी से सुलझाया है। एक ऐसा सरल उपाय दार्शनिक जगत के सामने रखा है जिससे प्रत्येक मनुष्य उनको आसानी से परख सके। थोड़े एवं सीधे शब्दों में उसका सारांश यों समझना चाहिए कि हमारे जीवन

— आंखें खोलो —

के मुख्य पढ़लू दो हैं— प्रवृत्ति और निवृत्ति; दूसरे शब्दों में कायं और निरोध। हम कहीं प्रवृत्त होते हैं और कहीं निवृत्त। हमारी जितनी निवृत्ति है वह सब आत्म संचम है, धर्म है। निरोध जितना अधिक महत्व पूर्ण है उतना ही वह कठिन है। प्रारंभिक दशा में निरोध हमारे जीवन के अल्पांशों में होता है और प्रवृत्ति अधिकांशों में निरोध को धर्म भानने के विषय में प्रायः सभी दर्शनों का मत एकसा है, जो कुछ अतंक्य है वह वह प्रवृत्ति के आश्रय पर ही उपजीवित है। अथवा यह कहना चाहिए कि बाद विवाद का अधाड़ा ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति धर्म है या अधर्म यह प्रश्न हमारे सामने सबसे चिकट है। इसको सरल करने का सभी दार्शनिकोंने यथासाध्य प्रयत्न किया है। यथा सम्भव सपल भी हुए हैं। परन्तु मध्यस्थ वृत्ति से देखा जाय तो हमें यह कहना होगा कि इनमें जैनाचार्यों का प्रयत्न अधिक स्तुत्य है। उन्होंने इस विषय पर ओरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश डाला है। इसे प्रवल पव अकाल्य युक्तियों की कसौटी पर कसा है जिसे कोई भी युक्तिवादी अस्वीकार नहीं कर सकता। वह युक्ति का शुद्ध दर्शन संक्षेप में यां है— हमारी

— आंखें खोलो —

प्रवृत्तियों के दो वर्गीकरण हैं । एक असत्य प्रवृत्ति नामक दूसरा सत्य प्रवृत्ति नामक । जो जो असत्य प्रवृत्ति है वह अधर्म है और जो जो सत्य प्रवृत्ति है वह धर्म है । सत्य प्रवृत्ति का दूसरा नाम तपश्चर्या है । इतने मात्र से कुछ नहीं बनता । विभाजन का प्रश्न तो अभी यों का त्यों है । इन दोनों प्रवृत्तियों के विभाजक सब दोषों के मूल कारण राग और द्वेष हैं । जिस प्रवृत्ति में राग और द्वेष हैं वह असत्य प्रवृत्ति है जिसमें यह दोनों नहीं है वह सत्य प्रवृत्ति है । इस लिङ्गान्त के आधार पर हम हमारे प्रत्येक कोर्य को परख सकते हैं । विवेक मूलक विचारों से तोल सकते हैं । धर्म एवं अधर्म के गूढ़ रूप को प्रगट कर सकते हैं । यह निरोधात्मक धर्म जिसे जैन परिमाण में संवर कहते हैं और सत्य प्रवृत्त्यात्मक धर्म जो निर्दरा के नाम से प्रख्यात है, ही जैन संस्कृति की नींव है ।

[?]

जैन संस्कृति का सामाजिक रूप

धर्म कोई वाहा बस्तु नहीं । वह कहीं भोल नहीं मिलता । रूपये पैसे से उसका विरोध है । न कहीं उसकी राशि इकट्ठी की हुई है, न वह स्वार्थ और मोह माया का डंपासक है न वह बलधान के द्वार्थों का खिलौना है और न भौतिक लालसाओं का दास है । वह हमारी आत्मा का गुण है । हमारी आत्मा ही उसका केन्द्र है । हमारी सद्भावनाएँ उसकी बासस्थली हैं । हमारा आचरण उसका स्वरूप है । न तो वह हमसे पृथक हो सकता है और न वह उससे । हम उसका जितना आदर करेंगे उतना ही वह हमारा करेगा, उसका सम्मान हमारा सम्मान है । उसकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है । हमें जीवन के क्षण २ में उसका ध्यान रखना चाहिए । इसमें हमारा कल्याण और उसकी महिमा है । धर्म हमारे महर्षियों की अमूल्य शोध का

— आंखें खोलो —

एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सुख और शान्ति का सर्वोच्च साधन है।

आज सुख और शान्ति के अन्वेषण में अनेकों बाद अपनी २ राग अलाप रहे हैं। दुनियाँ को अपनी २ और सर्वोच्च रहे हैं। सुख का प्रलोभन दे रहे हैं। समर्थता और वौद्धिक विकास की डॉगे हाँक रहे हैं। पर उद्धिष्ठता में सुख और शान्ति कहाँ? जिनकी भीति महान् आकांक्षाओं की प्रति करना है, जिनके वाक्य २ महा-आरम्भ का उपदेश कर रहे हैं, जिनके एने २ में स्पर्धा में भाव उभर रहे हैं, जिनका अन्तिम निष्कर्ष परिग्रह का एकाधिपत्य है, जिनके अथे से इति तक के अक्षर स्वार्थ की स्थानी से लिखे गये हैं और जिनका लक्ष एक मात्र भौतिक सुख है। क्या वे ही (बाद) हमारे जीवन में शान्ति भरेंगे? क्या उन्हीं से हमारे सुख का पथ प्रशस्त होगा? नहीं, तीन काल में भी नहीं। बदि 'ऐसो' करने में 'ही' सुख मिलता, महेन्द्रा और महारंभ में ही आनन्दानुभूति होती तो क्यों हमारे सर्वेमानुकूल आचरण वहुमूल्य समझे जाते? कैसे समता से अनूठ रस उपकृता? आधुनिक युग प्रवर्तकों ने

— अर्थ सोलो —

महेच्छा और महारंभ को सुख का साधन बता कर अनता के हृदय को किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है।

महेच्छा और महारंभ में सुख कैसा है। इसका परिणाम अब सामने निकले आया है। इसके कड़े अनुभव अचंमूर्त वन चुके हैं। किन्तु अब क्या किया जाय ? एक उससे पल्ला छुड़ाना भी तो सहज नहीं। अब उनका बिल ढूँढ रहा है। उनका कला-कौशल उनके लिप अभिशंप हो रहा है। उनके प्रवार उनके लिप दुःख की स्थायी रूप रहे हैं। उनकी लोलसा सर्वमक्ती की भान्ति उन्हें कवलित कर रही है। इस दशी में जिन भगवान् महावीर की अद्विसा का अमर संदेश देने वाली सुधासिंक वाणी उनको अमर शान्तना दे सकती है। शान्ति के अभिलापियों और सुख के अर्थियों। अब भी चेतो ! संस्कृति के प्रवाह को बदलो। स्वार्थ पूर्ण वादों को जलांजलि दो। महेच्छा और महारंभ से कर्षट बदलो। जैन संस्कृति को अपनाओ। जैन संस्कृति कोई व्यक्तिगत एवं जातगत संस्कृति नहीं। वह जितेन्द्रिय पुरुषों की संस्कृति है। राग द्वेष को जीतने वालों की है। सघो विजेताओं की है। सुख का अधिकारी विजेता हो सकता है। पराजित नहीं। धास्तवे

— आँखें खोलो —

में सुख की लालसा है तो इन्द्रियों की विजय करो, सालज्ञाओं को जीतो और उनसे पराजित भत्त बनो । सबसे पहले आत्म-दमन के शाढ़ को सीखो । और उसे जीवन में उतारो । जिन भगवान् महाबीर के तपोजीवन में प्रस्फुटित हुआ था और उनके शब्दों में आज भी हमारे लिए प्रस्फुटित है । जैसे— आत्मा का दमन करो, आत्मा ही दुर्दान्त है, आत्म-दमन करने वाला पुरुष इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखी होता है । १. हमारी आत्मा का दमन संयम से होना चाहिए अथवा तपत्या से, न कि किसी अन्य के द्वारा प्रयुक्त वन्धन से । २. यह कौन नहीं जानता कि मन पर शासन किये विन मनुष्य सुखी नहीं हो सकता ? मन को न जीतने वाला सम्राट् भी सुखी नहीं बन सकता । और मन पर कावू पाने वाला एक रंक भी सच्चे सुख को पा सकता है ।

जितेन्द्रिय का सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए यही अध्याय का विवेचनीय विषय है । जैन धर्मस्कृति का लद्य आत्म-सोभन होना चाहिए । मानव शरीर का महत्व इसलिए है कि वह अधिक से अधिक घौंछिक विकास और

१-डक्टराधर्यन-अध्ययन-१ गाथा-१४ । २-उ० अ० १ गा० १५ ।

— आंखें सोलो —

सदाचार का साधन है। विनय विजयजी के शब्दों में ३ “इस अशूचि शरीर में यदि कोई सार है तो यही कि उसमें बरम सीमा का आत्म विकास करने की सामर्थ्य है।” अतएव भगवान महावीर ने चार दुष्प्राप्य बस्तुओं में मनुष्य जन्म को सबसे पहला स्थान दिया है। ४ भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्व.मी ने समस्त क्लेशों से पार होने के लिए शरीर की नौका से तुलना की है। ५ हमें इसके साथ २ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मानव शरीर अहित का भी उतना ही बड़ा साधन है, जितना हित का है। हिताहित की विवेचना करना हमें पर निभर है। इसलिये मनकी शुद्धी के साथ शरीर को अहिंसा के अर्गनी कुण्ड में होम देना चाहिए। वासनाओं को जला कर खाक कर डालना चाहिए हम ऐसा करने में समर्थ हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी आत्मशक्ति असीम है, अनन्त है। हमें कहीं भी निराश नहीं होना चाहिए।

जैन संस्कृति में निराशा का मुलोछेर है। उद्योग और भाग्य का समन्वय है। उद्योग को मानकर हम सक्रिय हैं, और भाग्य को मान कर सन्तुष्ट। भाग्य ३-बपुषि विविन्तमय परमिह सार, शिव साधन सामर्थ्य मुदारं (शान्ति) ४-उ० श० ३ गा० ११। ५-उ० श० २३ गा० ७३।

— आंखें खोलो —

के भरोसे हम निटुले नहीं रह सकते और उच्योग के उपरान्त हम हताश नहीं हो सकते । इन दोनों का संतुलन न हमें अग्रनर कर सकता है । इनके द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं को भोगने के लिए मनुष्य सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है । सामाजिक जीवन में व्यक्ति का समर्पित के साथ तांता जुड़ता है । समर्पित के विचारों का एकीकरण नहीं हो सकता । “मुखडे मुखडे मतिभिन्ना” का सिद्धान्त सर्वथा सत्य है । सामूहिक जीवन में किसी न किसी रूप में समाज के प्रत्येक अंगों के साथ सम्बन्ध रहना अनिवार्य हो जाता है । एक दूसरे का परस्पर विचार विनिमय भी होता रहता है । ऐसी अवस्था में मनुष्यों को मानवता की रक्षा के लिए शान्ति से जीवन विताने के लिए किस मध्य विन्दु पर अपने जीवन को स्थिर करना चाहिए ? किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए ? इसका बोध कराने के लिए भगवान् महावीर ने जिन नियमों का उपदेश किया या यों कहिए कि : अहिंसा को ही अनेक प्रकार से पालना सिखाया, वे यों हैं—१ अहिंसा व्रत, २ सत्य व्रत, ३ अचौर्य व्रत, ४ स्वदार सन्तोपत्रत, ५ अपरिग्रहव्रत, ६ दिग्ब्रत, ७ उपभोगपरिणामव्रत, ८ अनर्थदण्डविरति, ९

— श्रांखें खोलो —

सामायिरुप्रत । १० देशावकासिकव्रत, ११ पौषधव्रत, १२ अतिथिरुचिभागव्रत ।

उपशम, मृदुता, नम्रता और अनासक्ति ये चार गुण हन व्रतों के मूल हैं । इन चार गुणों को धारने वाला पुरुष ही व्रतों का पूरा २ लाभ उठा सकता है । जब तक ये गुण न आजाएँ तब तक सज्जा विश्वास नहीं हो सकता । सत्य श्रद्धा के बिना सज्जा ज्ञान नहीं हो सकता । सत्य ज्ञान के बिना व्रत ग्रहण नहीं हो सकते और इन तीनों के या ये बिना भनुष्य आत्मदर्शन, आत्मशोधन अथवा ईश्वरत्व के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता । अतएव पहले अध्याय में यह वतलाया जा चुका है कि जैन संस्कृति का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और उसकी जड़ कषाय चतुष्क की वैजय है । ये चार गुण चार कषाय के दमन से ही उत्पन्न होते हैं । व्रतों को अदूर्घित रखने के लिए कलह, अन्यारथान वैशुन्य, परपरिवाद, मायामृपा आदि दोषों से बचते रहना चाहिए ।

इन सबका विवरण इस छोटी सी पुस्तक में नहीं किया जा सकता । अहिंसा, अपर्यग्रह एवं उपभोग विट्ठि का कुछ विवेचन कमशः आगे के तीन अध्यायों में

— आंखें खोलो —

पाठकों को दृष्टिगोचर होगा। अवशिष्ट सवका इसी अध्याय में चन्द्रुपात करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या समाज यह समझना चाहे कि वह दुःखी क्यों है? तो उनको इससे सम्मो प होगा। उन्हें फिर इस प्रश्न की आवश्यकता न होगी कि सुख के साधन क्या हैं? मैं जैन संस्कृति के जिस आचरणों का उल्लेख कर रहा हूँ वे सामाजिक जीवन की शान्ति के अचूक उपाय हैं, सुख की अपूर्व शोध हैं। हमारे धर्माचार्यों की उदार और उदास्त देन है। उन्होंने हर प्रकार से हमारे जीवन को सभ्य एवं सांस्कृतिक बनाने का जो प्रयत्न किया वह आज भी हमें स्वर्गी सुख का अनुभव करा सकता है—यदि हम उसके अनुसार चलें। सुखार्थी मनुष्यों को इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। उन आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए। सुख के अवेपक को सबसे पहले यह परखना चाहिए कि सुख दुःख के साधन हमारे आचरण हैं या बाहरी वस्तुएँ। जो आचरणों को सुख का साधन मानते हैं उनका दृष्टिकोण या मार्ग, बाहरी पदार्थों को सुख का साधन मानने वाले से पृथक होगा। मैं देखता हूँ कि जहाँ तक सुझे पता है आधुनिक तत्त्ववेताओं ने बाहरी वस्तुओं को ही प्रायः सुख दुःख का साधन माना है, जबकि अध्यात्मवादियों

ने आचरण को घतलाया। हम मध्यस्थ दृष्टि से दोनों की परख करें तो अध्यात्मवेताओं का मत ही ठीक जान पड़ता है। यह कहने का अभिप्राय दोनों की मुख्यता से है। क्वचित् तो दोनों का सम्बन्ध रहता ही है। जो भोजन स्वस्थ शरीर में मीठा लगता है वही ज्वर में कहु वा। भूख के समय भोजन पर जो रुचि होती है वह उस होने के पश्चात् नहीं।

क्रोधी मनुज्य गली सुन कर जल जाता है-वही गली क्षमाशील का कुछ नहीं विगड़ सकती। जो जितना अधिक आसक होता है वह उतना ही अधिक बाहरी वस्तुओं से प्रभावित हो जाता है। जिसका मनोबल विशुद्ध होता है-वह बाहरी वस्तुओं पर कुछ या लुभ नहीं होता। अध्यात्मवेता को न तो जीवन का लोभ होना चाहिए और न मृत्यु का भय। इसलिए प्रत्येक मनुज्य को अपने आचरण और भावना को स्वच्छ करना चाहिए, बाहरी वस्तुओं पर अधिक मुख्य होने वाला उद्दिग्न और अधिक अशान्त होता है। उनको ज्याँ त्यों पाने के लिए अधिक हिंसा, असत्य, आरम्भ और छुल आदि अशान्तवर्धक उपायों का सदृश सेना पड़ता है जिससे सामूहिक शान्ति अपना मुँह चुरा सेती है। 'आंज' के युग में भोग के साधन चरंग सीमा पर पहुँच चुके हैं। नित्य नई वस्तुएँ प्रति स्वर्धा के साथ बन

— आगे खोलो —

रही हैं। नित्य नये तरीके निकाले जा रहे हैं। तो भी जीवन में अशान्ति है, उद्विग्नता है। इसका कारण सदूभावना और सदाचार की कमी है।

जैन संस्कृति के अनुसार जीवन कैसे विताया जा सकता है? इसका प्रारम्भ प्रस्तुत अध्याय में सत्यब्रत से होगा। सत्यब्रत के इन पाँच नियमों का पालन करना चाहिए। १. कन्या और वर के सम्बन्ध में अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। अर्थात् इनके गुण, रूप, योग्यतादि विपर्यास नहीं बतलाना चाहिए। २. मनुष्य सम्बन्धी जो कुछ बड़ा भूठ बोला जाता है वह सबके इसके अन्दर समाविष्ट है। ३. गाय, पशु आदि के सम्बन्ध में अन्यथा नहीं कहना चाहिए। ४. भूमि के सम्बन्ध में अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। ५. घरोदार के विषय में भूठ नहीं बोलना चाहिये। ६. भूठी साली नहीं देनी चाहिए। उक्त नियमों के पालन के लिए निम्नांकित दोषों को बरजना चाहिये।

१. हठात् विना विचारे किसी को दोषी नहीं करना चाहिए।

१—विवाह आदि के सम्बन्ध में। २—कर्म-विक्रम के संबंध में।
३—परकी भूमि को निज की कहना इत्यादि।

— आंखें खोलो —

२. मन में भेद डालने के लिए विरोधी प्रचार नहीं करना चाहिए ।

३. मर्म की वातें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए ।

४. गलत रास्ता यानी मथ्या उपदेश नहीं बतलाने चाहिए ।

५. जाली लेखादि नहीं लिखना चाहिए ।

सांसारिक धन्धों में फँसे रहने वाले सामाजिक मनुष्य कर्तव्य असत्य वाणी को त्याग सकें यह सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कथमयि सम्भव नहीं बनना तथापि वैसा असत्य तो अचश्य त्यागना चाहिये जिससे अपनी भावनाएँ अति कलुषित बनें एवं समाज को भी उसका कटु परिणाम भोगना पड़े । अचौर्यव्रत खात खन कर, सन्दूकें खोल कर, ताले तौड़ कर, जेव काट कर इत्यादि निन्दनीय उपायों से परवस्तु का हरण नहीं करना चाहिये । पांतत एवं विस्मृत वस्तु को नहीं उठाना चाहिये । डाका नहीं डालना चाहिये । अचौर्यव्रत की रक्षा के निमित्त वर्जनीय दोषः—

१. चोरी की वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए ।

२. चोर को कोई भी सहायता नहीं देनी चाहिए ।

— आंखें खोलो —

३. विरुद्ध राज्य में व्यापारादि के निमित्त नहीं जाना चाहिए। (युद्ध जैसे समय पर जब एक से दूसरे का यातायात बन्द हो वैसी हालत में)

४. लेन देन के समय मोल एवं माप न्युनाधिक नहीं करना चाहिए।

५. बहुमूल्य वस्तु में अल्पमूल्य वस्तु मिला कर नहीं बेचना चाहिए। जैसे—घी में बेजिटेवल।

उक्त प्रकार की चोरी राज्य व्यवस्था से दण्डनीय एवं समाज व्यवस्था से निन्दनीय है। इससे सामाजिक जीवन में धन्वा लगता है। चोरी सामाजिक शान्ति के लिए एक बड़े से बड़ा खतरा है। अतएव इस प्रकार की बड़ी चोरी को अवश्य त्यागना चाहिए।

स्वदार सन्तोष व्रत—इनपनी विवाहित पत्नी के सिवाय शेष सब स्त्रियों के साथ काम कीड़ा करने का त्याग करना चाहिए। इस व्रत की रक्षा के लिए वैश्या, अनाथ स्त्री, विधवा, कन्या, कुल वधु आदि के साथ काम जनक आलोप संलाप भी नहीं करना चाहिए। काम की लालासा को नियंत्रित किये विना मानव जीवन पशु का सा जीवन है। आरोग्य, वल और ओजस्विता का इससे धन्निष्ठ सम्बन्ध है। दुराचारी

— आखें खोलो —

समाज का अघश्य पतन होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह व्रत आवश्यक है।

किंग्रेवत—केवल भ्रमण का संयम करना चाहिए। जैसे इस सीमा से मैं आगे नहीं जाऊँगा। यदि चला जाऊँ तो भी अन्य के अधिकारों को नहीं कुचलूँगा। व्यापारादि के प्रयोग से धन हड्डपने की चेष्टा नहीं करूँगा इत्यादि। इस व्रत का बड़ा महत्व है। इसके आंचरण से परंकीय अधिकारों पर हीने वाला हस्तक्षेप रोका जासकता है।

अनर्थ दण्डविराट—विना प्रयोजन हठ धर्मिता, अभिमान और ऐश्वर्य के उत्कर्ष आदि हेतुओं से किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। प्रिय के विछुड़ जीने पर एवं अप्रिय के मिलने पर आतुर नहीं होना चाहिए। मैं सारे जंगत का सप्राट धन जाऊँ ऐसे संकल्प नहीं करने चाहए। विना आवश्यकता के हिसाकारी शरद्वास्त्रों को नहीं देना चाहिए। इस व्रत का उद्देश्य जीवन-निर्वाह के अनावश्यक कामों को रोकना है।

सामायिक व्रत—अध्यात्म चिन्तन के लिए देनिक प्रार्थना एवं आत्म संयम के अभ्यासार्थ प्रातिदिन एक मुहूर्त तक हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन एवं परिग्रह सम्बन्धी, आच-

आंखें खोलो —

रणों को स्वयं त्यागना चाहिए एवं दूसरों को हिला आदि का आदेश उपदेश नहीं देना चाहिए। आत्म संथम एवं शान्ति की अनुभूति का यह श्रेष्ठतम उपाय है।

देशावकासिक व्रत—एक घड़ी, एक दिन, एक मास आदि पारमित समय तक हिंसा असत्य, परिग्रह, भोगोपभोग आदि को रोकने के लिए इस व्रत की उपयोगिता है। जैसे— आज मैं कोई भूड़ नहीं बालूँगा। एक वप में जीवन निर्बाह के लिये आवश्यक है—उससे अधिक धन का संग्रह नहीं करूँगा। एक महीने में अमुक २ चीजों के सिवाय कोई भी चीज नहीं खाऊँगा और नहीं पहनूँगा और न कोई दूसरी तरह से उनका व्यवहार करूँगा। एक महीने में इतनी धार से अधिक थुन नहीं सेवूँगा। इस प्रकार जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित कर लेना आहिये जिससे मन की उछुँखलता न बढ़ सके। इस व्रत को हम दैनिक चर्या का अमुख अंग कह सकते हैं। इयत्ता का अभ्यास करने के लिए यह पहली सीढ़ी है। अनन्त तृष्णाँ को रोकने के लिये इयत्ता का सिद्धान्त ध्रुव सत्य है। इयत्ता का अर्थ है—मन की तृष्णा का तो कर्त्ता अन्त कर डालना और जीवन की आवश्यकताओं की एक हृद कर देना जिससे हिंसा और मोह की भावना

— आँखें खोलो —

हृदय को कर्तव्यविमूढ़ न बना पाये और दूसरों के हक को छिनने की चेष्टा न जाग उठे ।

पौष्पध व्रत—एक दिन रात तक उपवास के साथ हिंसा आदि को त्याग कर आत्मविनियतन करना चाहिए ।

अतिथि संविभाग व्रत—अपने खान-पास के लिए भी संग्रह न करने वाले अथवा हिंसा न करने वाले त्यागी मुनियों को, उस भोजन सामग्री का जो गृहस्थ अपने लिए तैयार करता है, जितना हिस्सा दे सके उतना देना चाहिए । १

१-कोध, लोभ, स्वार्थ आदि कारणों से अपने आश्रित नौकर मजदूर, जानवर आदि जीव जन्तुओं को खाने पीने में रुका-बट डालना, उनका काम करने का समय पूरा हो जाने पर भी छुट्टी न देना, ऊँट, घोड़ा, खच्चर आदि पशुओं पर उनकी शक्ति से अधिक भार लादना, मनुष्य एवं पशुओं भोगाढ़ बन्धन से बान्धना, मारना, पीटना, अंगोपांग छेदना आदि २ चित्त को कूर बनाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए । यद्यपि ये वातें साधारण सी प्रतीत होती हैं तथापि इनमें एक बड़ा भारी तथ्य है । वह यह है कि वडे आदमी अपने से छोटे जीवों को नगरण समझ कर उनके प्रति जो लापर-वाही बरतते हैं । वह इन नियमों के पालने से अपने आप नष्ट हो जाती है और पेसी दशा में श्रेणी युद्ध वर्ग संघर्ष जैसी घटनाओं की कल्पता ही नहीं की जा सकती ।

— आंखें खंलो —

आचरणों में ज्ञाना, कोमलता, नम्रता एवं अनुसंक्षिप्त होनी चाहिए। अपस में स्फगड़ना नहीं चाहिए। किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। छुगली नहीं करनी चाहिए। अपने दोष को द्वयाने के लिए भूउ नहीं बोलना चाहिए। मद मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अनछुना पानी नहीं पीना चाहिए।

निन्दा करना, दूसरे का सुख देख कर जलना इत्यादि कुचेष्टणे सामूहिक शान्ति को भंग करने वाली हैं, उत्तेजना एवं वैमनस्य को भड़काने वाली हैं। इनके किटाणु सामूहिक जीवन में गन्धरी फैल ने वाले हैं। हमारे वर्तमान आचर्य के शब्दों में यह अनुरूपीय चिकित्सा को व्यथा करने वाला नूतन एवं प्राचीन चिकित्सा शास्त्रों को त्रुटि पूर्ण बनाने वाला, तन्त्र, मन्त्र, जड़ी-बूटियों से न मिटाने वाला अमिट और असाध्य रोग है। अतएव इन महादोषों ने अंबश्य त्यागना चाहिए।

ऊपर का पंक्तियों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार जीवन हा संचालन करना ही जैन संस्कृति का सामाजिक रूप है। ऐसे आचरणों में विताया जाने वाला सामाजिक जीवन केतना उत्कृष्ट हो सकता है और आज के जग में ऐसे आच-

— आंखें खोलो —

रणों की कितनी आवश्यकता है ! यह सबके सामने है। जैन संस्कृति की आचार पद्धति से वडे-वडे गरण्यमान्य पंडित प्रभावित हुए हैं। इण्डियन रिव्यु के अक्टूबर सन् १९०० ई० के अंक में मद्रास प्रेसीडेन्सी कॉलेज के फिलोसोफी के प्रोफेसर मिठा० ए० चक्रवर्ती एम० ए० एल० टी० ए० लिखित जैन फिलोसोफी नाम के निगम्य का गुजराती अनुवाद महावीर पत्र के पौष शुक्ला-१ वी सम्वत् २४४८ के अंक के कुछ वाक्य “धर्म अनेकमाज् नी सुधारणा मां जैन धर्म वहु आगला अगत्य नो भग्न मजी सके छै कारण आ कार्य माटे ते उत्कृष्ट रीते लायंक छै। आचार पालन मां जैन धर्म धणो आगल वधै छै; अने वीजा प्रचलित धर्मों ने ते सम्पूर्ण-तानु मान करावे छै। कोई धर्म मात्र श्रद्धा (भक्ति) ऊपर तो कोई ज्ञान ऊपर अनेकोई वली चरित्र उपरज भार मुके छै। परन्तु जैन धर्म ए त्रणे ना समर्वय अने सहयोग थी आत्मा परमात्मा थत्य छैं। एम स्पष्ट जनावे छैं।”

जर्मनी के डाक्टर जोहन्स हरटल तारीख १७-६-सन् १९०८ के पत्र में कहते हैं कि “मैं अपने देशवासियों को दिखाऊँगा कि कैसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार जैन धर्म और जैनाचार्यों में है। जैन का साहित्य वौद्धों से बहुत

— आंखें खोलो —

वढ़ कर है। ज्यों-ज्यों मैं जैन धम और उसके साहित्य को समझता हूँ त्यों-त्यों मैं उनको अधिक पसन्द करता हूँ।”

पेरिस के डाक्टर ए० गिरनाट ने अपने पत्र तारीख ३-१२-११ में लिखा है कि “मनुष्यों की तरक्की के लिए जैन धम का चरित्र बहुत लाभकारी है। यह धम बहुत ही असली, स्वतन्त्र, सादा, बहुमूल्य तथा ब्राह्मणों के मर्तों से भिन्न है तथा बौद्ध के समान नास्तिक नहीं है।”

रा: रा: वासुदेव गोविन्द आप्टे वी० ए०, इन्दौर निवासी के व्याख्यान से लैनियों की एक समय हिन्दुस्तान में उच्चतावस्था थी। धर्म जाति राज्यकार्य धुरंधरता, शास्त्रदान, समाजोन्नति आदि वातों ये इतर जनों से बहुत आगे था” इत्यादि। इस प्रकार अनेकों तत्त्व परीक्षकों ने जैन दर्शन के आचार-विचार का महत्व बतलाया है।

मध्यकाल में ब्राह्मण संस्कृति और जैन संस्कृति का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था कि ज्योतिष शास्त्री भाष्करा-चार्य ने अपने ग्रन्थ में ज्ञान, दर्शन और चरित्र को धर्म के तत्त्व बतलाये हैं। शैव दर्शन में भी इन तीनों को इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। साहित्य गर्गी ने भी इस समन्वयवाद को उपयोगी माना है।

— आँखें खोलो —

जयशंकर प्रसाद ने अपने हिन्दी के महाकाव्य “कामायनी” में इस तथ्य का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है। केवल ज्ञान ने वैज्ञानिकों को पटम वर्म जैसी नाशक शक्तियों के चक्र में फसा रखा है। केवल विश्वास ने ही अन्धश्रद्धा को पोषित किया है। इसलिए समन्वयवाद ज्ञान-दर्शन चरित्र का सम्मिलन ही हमी शोध का प्रशस्त हो सकता है।

जैन धर्म और वर्ण व्यवस्था ।

जैन संस्कृति में वरणव्यवस्था तात्त्विक नहीं मानी गई है। जैन-दर्शन द्रव्य धुवता की अपेक्षा विश्व को अनादि, अनन्त, अचल और बदलती हुई अवस्थाओं की अपेक्षा सादिसान्त एवं परिवर्तनशील मानता है। परिवर्तन का मुख्य हेतु काल की भर्याद्वा है। काल के प्रबाह से परिस्थितियों का परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान कालचक्र के कर्मयुग में मनुष्यों का प्रवेश हुआ। अकर्मण्य रह कर जीवन निभाने

— आंखें खोलो —

के साधन समाप्त हो गये। तब जैन के प्रथम तीर्थकर, कर्मयोग-प्रथमोपदेशक ऋूपभनाथ स्वामी ने असि, मसि पर्वं कृपि इन तीन कर्मों की व्यवस्था की। जो लोग असि द्वारा रक्षा करने लगे वे 'क्षतात्त्रयते' इसके अनुसार क्षणियं कहलाये। जिन्होंने स्याही से लेखापढ़ी का काम किया याने क्रय-विक्रय, आदान-प्रदान का धन्या किया वे वैश्या या द्वापारी कहलाए। कृपि करने वाले कृपिकर या कारु कहलाये।

इनके पश्चात् कर्मयुग के विकास के साथ ज्यों-ज्यों भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता वढ़ती गई त्यों-त्यों उनका निर्माण होता रहा और उन कार्यों के अनुसार निर्माताओं की श्रेणियां वढ़ती गई। जैसे-लोहे का काम करने वाला लोहकार, सोना घड़नेवाला स्वर्णकार, कुम्भ बनाने वाला कुम्भकार, शासन करने वाले शासक, कुल को पालनवाले कुलपति इत्यादि। इसके पश्चात् भगवान् ने दीक्षां ली तब अहिंसा आदि धर्म का उपदेश दिया। उनको पालने वाले माहण [व्राह्मण] कहलाये। त्रिपटीशला का पुरुष चरित्र के अनुसार भगवान् ऋूपभद्रेवं के ज्येष्ठ पुड़ि भरतं ने विशिष्ट-

— आंखें खोलो: —

स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियों का एक संघ बनाया वह ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । १

ऋग्वेद आदि प्राचीन शास्त्रों में भगवान् ऋषशमदेव का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है । ब्रह्मागण पुराण में—“नाभिस्तु जनमेत् पुत्रं, मरुदेव्यां मनोहरं । ऋषयम् क्षत्रिय सर्वं क्षत्रस्य पूर्वकम् इत्यादि । मनुस्मृति में “नाभेजांत उख्क्रमः” “नीति व्यस्य करतायो युगादौ प्रथमो जिनः” इत्यादि ।

चर्ण व्यवस्था को अतार्किक बतलाते हुए जैनाचर्ण अभित धति ने अपने अन्य धर्म परीक्षा में लिखा है कि “आचार मात्रमेदेन, जातिनां भेद कल्पनम्” “ब्राह्मणक्षत्रिया-दीनां, चतुर्णाभपिततातः । एकैव मानुषी जाति राचारेण चिभज्यते” तत्वतः मानुषी जाति एक ही है । इसके ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद आचरण की भिति पर किये गये हैं । सबसे थोष जाति कौनसी है इसका समाधान करते हुए लिखा है— “संयमो नियमः शीलं तपोदानं दयो दया । विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां साजातिमहृति सत्ताम्” । जैन मूल

१—ब्राह्मण के लक्षणों के लिए उत्तराध्ययन का २५ वें अध्ययन की १६ से २६ तक की गाथाएँ दृष्टव्य हैं ।

आगम में तपस्था की विशेषता बतलाई है, जाति की नहीं। सारांशः—

१- आचाराखेद से जाति की कल्पना हुई है वह कोई तात्त्विक वस्तु नहीं।

२- सबश्रेष्ठ जाति वही है जिसमें तप, स्वाध्याय और संयम की विशेषता है।

३- प्रत्येक व्यक्ति धर्म एवं तत्त्वज्ञान का अधिकारी है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। उससे मानवीय गुण अवश्य होने चाहिए।

४- पूर्ववर्ती जैन ग्रन्थों में स्पृश्य और अस्पृश्य कोई भी विभाग नहीं है। (उच्चरवर्ती जैनाचार्यों ने आदि पुराणादि ग्रन्थों में बतलाया है, वह अनुमानतः तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव है)।

५- किसी का तिरस्कार करना या किसी से भी घृणा करना कर्मजन्य दोष है।

— आंखें खोलो —

५- प्रमेय कमल मार्तण्ड, आवार्य प्रभावन्द रचित ।

६- न्याय कुमुदवन्द आवार्य " रचित ।

७- पद्मपुराण अध्याय- ५ श्लोक हृष्ट तथा अध्याय ६ श्लोक २०९ २१० । आवाव रविसेन रचित ।

जैन धर्म और लौकिक प्रश्न ।

पूर्व के पृष्ठों में मानव समूड के आदरणीय ऐसिक आवरणों का उल्लेख किया है । अब अध्याय की पूर्ति के साथ २ गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों पर भी कुछ प्रकाश ढाताना आवश्यक है । जैसे विवाह किस विधि से होने चाहिए ? वाल विवाह, घृद्ध विवाह, विषवा विवाह और अन्तर्राष्ट्रीय विवाह होने चाहिए या नहीं ? पर्दा रखना चाहिए या नहीं ? इत्यादि । अनेक समस्यायें हर समय उलझन के रूप में समाज के सूत्र-घारों के सामने रहती हैं ।

— आँखें खोलो —

जैन विचारकों ने इन लौकिक कार्यों के सम्बन्ध में एक स्थिर लिद्धात् कभी नहीं बताया, चूंकि ये सब उपस्थित धार्मिक आचरणों का जो स्थानीय एवं सदां उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा करना अति कठिन है। इनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता देश काल की भिन्न स्थितियों पर ही प्राप्तः निर्भर है। तत्कालीन प्रभावशाली विचारों का मुकाबला जिस और प्रबल होता है कहाँ कार्य समाज में प्रबलित हो जाना है। उसके प्रबलता में मैं प्रमुख कार्य उनका प्रभाव ही करता है। गुण दोष की परीक्षा नहीं। एकतो गुण दोष को आँहने वाले स्वतः ही विरले होते हैं और दूसरे ऐसे लौकिक गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों को नितान्त आवश्यक या अनवश्यक बतलाना वहीं से वहीं उलझने है।

इस दृश्या में जैनाचार्यों ने एक कंटकोंकीणों मांगे तो वहाँ से ही त्योग दिया कि लौकिक आचरणों से धार्मिक आचरण सर्वथा भिन्न है। दूसरा प्रश्न यह रहता है कि कौनसी लौकिक प्रथाएँ आदरणीय मानी जानी चाहिए ? इसको उत्तर धार्मिक दृष्टि से तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि धार्मिक दृष्टि से वे सब

की सब त्याज्य ठहरती है। धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं। गृहस्थ मनुष्य ऐसा करने में असमर्थ है। इस पिरस्तियति में उन्हें यही चाहिए कि वे सब कामों को अ त्याग सकें तो जिनमें अधिक हिंसा, आरम्भ और दुराचार हो उन्हें त्यागें। जिन प्रथाओं से भिन्ना विश्वास का पोषण हो, सम्यक भ्रष्टों को एक गहरा धक्का पहुँचे ऐसी परिपादियों को तो कत्तई तोड़ देना चाहिए। अन्यथा जैन संस्कृति को अपनाने का लाभ ही क्या ?

जैन संस्कृति का दार्शनिक रूप जानने की जिनके हृदय में जिज्ञासा की विद्युत् चमक उठी है। उनको अवश्य ही जैन का स्याद्वाद, कर्मवाद, नवतत्व, पट्ट-द्रव्य, पौच समवाय प्रमाण, नयसप्त अंगी आदि का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन सिद्धान्तों से विश्व के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य कां सुलभतया ज्ञान किया जा सकता है।

[३]

अहिंसा वाद

“सर्वेसि जीवयं पियं” (आचाराङ्ग लोक विजय)

सब प्राणियों को जीवन प्रिय है। यह अहिंसा के उद्गम का मूल सूत्र है। अहिंसा में मैत्री है, सद्भावना है, सौहार्द है, एकता है, समानता है, और अंधिरोध है। सुख और शान्ति है। अहिंसा का स्वरूप उपशम है। और मृदुता है। सरलता है, संतोष है, अगासकि है और अद्वेष है। अहिंसा हमारे मन में है, बाणी है, कामों में है। यदि इनके द्वारा हम न किसी दूसरों को सताते हैं और न अपने आपको। अहिंसा हमारी स्वाभाविक किया है। हिंसा हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है। इस तत्व को मानव मात्र समझ जाय तो शान्ति के दर्शन सहज हो सकते हैं। हिंसा में मनुष्य को परवशता का भान होना चाहिए। बिना खाये, खिना दीये बिना कुछ किये शरीर वहीं घल सकता। शरीर की सामर्थ्य के

— आंखें खोलो—

विना खाने-रीने का साधन नहीं जुटाया जा सकता। इस प्रकार की कमबद्ध शृङ्खलाओं की आनिवार्य प्रेरणा से मनुष्य व्यापार करता है। धन का अर्जन करता है, उसकी रक्ता करता है। उपभोग करता है। चौर-लुटेरों से अपने स्वत्व को बचाता है। दण्डप्रहार करता है। शासन व्यवस्था करता है। विरोधियों से लोहां लेता है। यह सब हिसा है। पूरे आत्म रुद्धि किये विना सब प्रकार की दिसाओं को नहीं त्यागा। जो संकता और सब प्रकार की हिसाओं को त्यागने के पश्चात् ये सब काम नहीं किये जा सकते। कितनी जटिल समस्या है अहिंसा और हिसा के बीच। हिसा के विना गृहस्थ मनुष्य जो नहीं सकता और अहिंसा के विना वह मानवीय गुणों को नहीं पा सकत। ऐसी स्थितियों में बहुधा बिचार शाक्याँ उलझ जाती हैं और इसके फलस्वरूप अहिंसा का देवी रूप जन दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैन आचार्यों ने मनौवैज्ञानिक तरीके से मानसिक विचारों का अध्ययन किया। उनकी गहरी ध्यानवीन की। और तत्पश्चात् पक्ष तीसरे हिसा और अहिंसा के बीच के भाग (मध्यम मार्ग) का निरूपण किया। यह मार्ग हिसा में रहते हुए भी अहिंसा का आदर करना सिखाता है। जैन दर्शन के अनुसार उलका नाम अहिंसा अथवा

— आंखें खोलो —

ब्रत है इस ब्रत का उद्देश्य उस हिंसा को छुड़वाने का है जिसको त्याग कर भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को बिता सकता है ।

गृहस्थ मनुष्य खाने के लिए भोजन पकाते हैं । पानी पीते हैं । रहने के लिए मकान बनवाते हैं । पहिनने औढ़ने के लिए कपड़े बनवाते हैं । यह आरम्भी हिंसा है । खेती करते हैं, खल कारखाने चलाते हैं । व्यापार करते हैं, यह उद्योगों हिंसा है । देश, जाति एवं कुटुम्ब की रक्षा करते हैं, आतताइयों से लड़ते हैं, अपने आश्रितों को आपत्तियों से बचाते हैं, खल आदि संभव उपायों का प्रयोग करते हैं, यह विरोधी हिंसा है । द्वेष वश एवं लोभ वश किसी पर आक्रमण करते हैं, विना प्रयोजन किसी को सताते हैं, जीवन की आनन्दार्थ आचरणकर्ताओं के विना दूसरों का स्वत्व छीनते हैं, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए मनमाना प्राप्तवध करते हैं, वृत्तियों को उच्छ्रुत खल करते हैं, यह संकल्पी हिंसा है । इस प्रकार हिंसा के चार प्रमुख वर्ग किये गये हैं । गृह त्यागी मुनि इन चारों प्रकार की हिंसाओं को त्यागते हैं अन्यथा वे मुनि नहीं हो सकते । गृहस्थ पहिली तीन प्रकार की हिंसाओं को पूर्ण रूप से नहीं

— अस्त्रें खोलो —

त्याग सकते तथापि यथा संभव इनको त्यागना चाहिए। यद्यपि उक्त तीनों प्रकार की हिंसा, हिंसा है तथापि संकल्पी हिंसा नहीं। क्योंकि व्यापारादि करने में मनुष्य का सीधा उद्देश्य हिंसा करने का नहीं, कार्य करने का होता है। संकल्पी हिंसा का सीधा उद्देश्य हिंसा का होता है, कार्य करने का नहीं। आज्ञाविका के वार्णों में एवं भोगोपभोग सामाजिकों को प्राप्त करने में दूसरों के शान्ति, सुख एवं हित और अधिकारों का कुचलने वाले काम भी वहुधा संकल्पी हिंसा जैसे बन जाते हैं। अतः सामूहिक न्याय नीति की व्यवस्था का उल्लंघन करना भी सबल हिंजा का साधन है। संकल्पी हिंसा तो गृहस्थ के लिए भी लर्वथा वर्जनीय है। संकल्पी हिंसा ही जगत को अशांत करने वाली हिंसा है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाली हिंसा का असर व्यक्तिनिष्ठ है। समर्पित नहीं। किन्तु संकल्पी हिंसा का आभिशाप समूचे देश और समाज को भोगना पड़ सकता है, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के कारण अभी आसन्नभूत में लोगों ने भोगा था। और उसका असर अभी मिटा नहीं है। मनुष्यों को अब भी संभलना चाहिये। प्रार्तिहिंसा को जन्म देने वाली

— आंखें खोलो —

हिंसा से बचना चाहिये । जीवन को अहिंसा के सांचे में ढाँचना चाहिये । अद्विता ही एक मात्र ऐसा उपाय है जो समूचे संपार को एकता के सूत्र में पिरो सकता है । वैमनस्य को मिटा सकता है ।

शत्रु को मिटा और संदिग्ध को विश्वस्त बना सकता है । अहिंसा में एकीकरण की उत्तरी ही प्रवल शक्ति है, हिंसा में जितनी विरोध की । अतएव अहिंसा का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है । जैसे अहिंसा आत्मा के लिये हित कर है वैसे ही राष्ट्र और समाज के लिये भी । राजनीति, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक मर्यादा में तो इसका महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिये । जिससे शासन एवं समाज के सूत्रधारों को वड़ी-वड़ी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । भविय भी सञ्चुज्ज्वल बना रहे । इतिहास, काव्य-कथाओं एवं प्रचलित किंवदन्तियों से हिंसा का परि-णाम निहारना चाहिये । जिस समाज या शासन-सूत्र ने जनता के साथ जितना अधिक वर्द्धरता का व्यवहार किया है वह उतना ही शीघ्र पतन की ओर अग्रसर हुआ । जिन्होंने जन साधारण का जितना अधिक तिरस्कार किया वे उतने ही अधिक तिरस्कृत हुए । जिन्होंने लोगों को अधिक दबाने

— आंखें खोलो —

की चेष्टा की बे अधिक परतन्त्र और दुखी बने। “जैसा वीज घोओगे वैसा फल पाओगे” यह सर्वथा सत्य है।

हिंसा का निश्चित फल प्रतिहिंसा और प्रतिशोध है। सद्भावना वाले व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति किसी के भी दुर्भाव नहीं हो सकते। असद्भावना वाला अपने आप दूसरों का अप्रीतिपात्र बन जाता है। शत्रु को भी मित्र बनाने वाला कोई महान् तत्व है तो वह अहिंसा ही है। अहिंसा हमारी सर्वश्रेष्ठ निधि है। अहिंसा, अव्यात्म, देश और समाज इन सबका आधार धारक और पोषक तत्व है। अहिंसा के साधक को भय और आसक्ति से परे रहना चाहिए। मृत्यु का भय एवं जीवन का अनुराग अहिंसा का बाधक है। अहिंसा का जीवन समता है। अहिंसक को उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। लोक परिभाषा में भी समता न्याय है और विप्रमता अन्याय। समता में सत्त्वना है और विप्रमला में उत्तेजना। विप्रमता के कीटाणु ने राज-तन्त्र का कल्पनातीत अन्त कर डाला। आज उसका रहा सहा अस्तित्व भी आपत्तियों से गिरा हुआ है।

आज युग की वाणी में जनतन्त्र का स्वागत है। उसकी आवाज वुलन्द है। जगह-जगह उसकी माँग है।

— अंति खोलो —

जगह-जगह उसका प्राधान्य है। यद्यपि प्रजातन्त्र प्रणाली में अनेकों की उपेक्षा की जाती है अनेकानेक दलवन्दियाँ होती हैं। विरोधी प्रचार एवं उक्साने वाली वृत्तियाँ स्वतन्त्र रहती हैं। प्रत्येक दल की महत्वाकांक्षाएँ स्पष्टी के साथ बढ़ती हैं। बार बार शासन-परिषद् (मिनिस्ट्री) का परिवर्तन होता रहता है। मत संग्रह (Vote) का क्रय-विक्रय किया जाता है। अंपनी-अपनी पार्टी को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, उस पर भी प्रजातन्त्र का बोलबाला है। वह प्रजातन्त्र का नहीं समता की भावना का है। जन साधारण को इसमें समता के तथ्य अधिक प्रतीत होते हैं, और विपर्मता के काम प्रजातन्त्र, राजतन्त्र का प्रत्यक्ष विरोध है। निन्दा और श्रपवाद है। राजतन्त्र बहुत से तथ्यों को लेकर चला था और वैसे ही चलता रहता तो आज उसकी पेसी दयनीय दशा न होती। राजतन्त्र के अधिकारी जन साधारण की रक्षा और आत्तराइयों को दण्ड देने के लिए एवं मात्स्यवृत्ति, अर्थात् शक्तिशालियों द्वारा निर्वलों पर होने वाले निर्धृण प्रहारों को रोकने के लिये बनाये गये थे न कि जन शोषण के द्वारा स्वपोषण के लिये। सामूहिक मर्दाओं को पालना और पलवाना। उनका काम था न कि स्वयं उनका उल्घन करना। पर-

— आंखें खोलो —

समय की परावृत्ति के साथ उनके विचारों में विषमता के अंकुर फूट पड़े। हिंसा के भाव प्रबल और पुष्ट हो गये। वे अपने आपको एक सञ्चालक न मन कर अति मानव मानने लगे। उन्होंने सामूहिक नियमों की अवहेलना की। अपनी मनमनी करने को ही न्याय का मान दण्ड बना लिया। बहुत दिनों तक ऐसा वैषम्य चक्र चलता रहा। पर, अखिंच जनता उब गई। उनके विरुद्ध एक सामूहिक क्रांति उठाइ। राजतंत्र धराशायी हुआ और जनतंत्र का सितारा चमक उठा। यह अर्हिसा और हिंसा का ज्वलंत उदाहरण है। समता और विषमता का अनन्य प्रतीक है। प्रेम और विरोध का स्फुट दर्शन है। आज के राजनैतिक और सामाजिक व्यक्ति अब भी प्रजातंत्र में भी परोक्ष में पल्लवित होने वाली विषमता को तिलांजलि न देंगे तो क्या प्रजातंत्र भी एक दिन अपने अस्तित्व को खतरे में न पायेगा? हम हमारे साथ समता का व्यवहार करवाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ वैसा ही क्यों न करें? हमें विश्व को अपने साथ तौलना चाहिये। जो स्थिति हमारे लिए असह्य, दुखद और विकट है उसे क्यों हम दूसरों के लिए उपस्थित करें? हमारे अन्दर चेतना ने विकास पाया है, हमारे अन्दर बुद्धि है, तर्क है, हम सोच सकते हैं, समझ

— आंखें खोलो —

सकते हैं। तो भी हम दूसरों के दुःख की पीड़ा को न समझें तो आँखें मँद अन्धेरा करने के सिवाय कुछ नहीं। अहिंसा का मर्म समझें विना यों ही अनगिनत पुरुषों के जीवन पशुओं की भाँति आपस में लड़ते भगड़ते वैर विरोध कलह, कदाग्रह करते-करते वर्याद हो गये और होते जायेंगे। सुख शान्ति तो सङ्कल्पी हिंसा को छोड़े विना, विप्रमता का घमन किये विना प्राप्त न हो सकेगी; चाहे कागज के टुकड़ों में कितने ही निःशस्त्राकरण के प्रस्ताव फँगों न पास कर लिये जायं। सङ्कल्पी हिंसा को त्यागने का कम निम्न प्रकार हैः—

१—दो इन्द्रिय वाले जीवों से लेकर पांच इन्द्रिय वाले निरपराध जीवों को सङ्कल्प पूर्वक जान-वूझ कर मारने का प्रत्याख्यान करना चाहिये और दूसरों के पास मरवाने का भी। एकेन्द्रिय जिवों का वध भी यथाशक्य बर्जना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिज्ञा से हृदय में मैत्री का उद्धव होता है और कूरता का मूलोच्छेद होता है जो कि सब अवगुणों की जड़ है।

२—प्रकृत्व को जीवित रखने के लिये आपसी विरोध न करना चाहिये।

— आँखें खोलो —

[४]

अपरिग्रह वाद

गुहस्थ जीवन ..थ परिग्रह का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनकी प्रत्येक आवश्यकताएँ पारग्रह पर ही निर्भर हैं। जीवन निवाह के लिए उनकी दृष्टि में परिग्रह का भूलांकन एवं महत्वपूर्ण वस्तु है। अर्थ-अर्जन, चार पुलपाथों में एक पुरुषार्थ है इनका उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए अनेकों अर्थ-शक्तियों ने अर्थ-शास्त्रों की रचना की। पांर-णाम यह हुआ कि मानव वर्ग आनंदार्थ आवश्यकताओं की पूति के लक्ष्य को भुला कर अतुल अर्थ-संग्रह की राक्षसी के चंगुल में फल गया। अर्थ लोलुभता के दल २ में सद्भावना एवं न्याय नीति की प्रगति का अंत कर डाला। व्यापारे प्रणाली, दूसरे शब्दों में शोषण प्रणाली के नए नए आविष्कार हुए, शरीर का पसीना बढ़ाने वालों के रक्त को चूसने के सम्य उपायों का भी कांतिकारी विकास हुआ। आज तो समूचे विश्व के

— आंख खोलो —

प्रांगण में अर्थ-संग्रह का तारडव नृत्य हो रहा है और वही सभ्यता का मान दरड और बड़पन की कसौटी है। जिसके पास धन है, वह सब कुछ है। निर्धन चाहे कितना ही नैतिक जीवन बला क्यों न हो वह तो चड़क-भड़क की दुनियां की नजर में ही नहीं आता। क्या समाज पतन के बहुमुखी कारणों में यह एक कारण नहीं है ? समाज को हर समय नैतिक उच्चता की आवश्यकता रहती है। नैतिक प्रतिष्ठा बले ही समाज को उँचा उठा सकते हैं, धनिक नहीं। जितने समाज के प्रनुभ्य निर्मातां हुए हैं वे सब नैतिक बल के पुजारी हुए हैं। उन सब ने एक स्वर में अर्थ-संग्रह की लालसा को त्यागने एवं नैतिक बल को अपनने का उपदेश या अंदेश दिया है। किन्हीं ने अध्यात्म प्रधान भावना से तो, किन्हीं ने समाज सद्व्यवस्था की भावना से। पर समूचे संसर के धन को हड़पने का सन्देश तो शायद ही किसी मानवीय महापुरुष की वाणी में अवतरित हुआ है। केवल अर्थ-शास्त्र ही की छुच्छाया में महा परिग्रह का बोज पत्ता है और उसके कारण ही अर्थ सञ्चय की ओर सबका दृष्टिकोण टिका हुआ है। नहीं तो मानव समाज का लक्ष्य अनन्त और

— आंख खोलो —

असीम आशा की पूर्ति का न होकर आवश्यकता की पूर्ति का न होता और धन में भी आवश्यकता पूर्ति की क्षमता है। आशा पूर्ति की नहीं। या यों कहना चाहिए कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर सकता है, आशा को नहीं।

भगवान् महावीर के शब्दों में धन की आशा आकाश की तरह अनन्त और सारे जगत का सम्प्रदय पाकर भी तृप्त नहीं होने चली है। मनुष्य अपने अ.ए. श्रधिक आशा में अशान्ति का अनुभव करता है। पर धन की लगन इतना अन्दर धसी हुई है कि उसे निकाल फेंकना मन में नहीं जचता। वैसा व्यक्ति तो लोक-दृष्टि में भी निन्दनीय समझा जाता है। जो स्वायत अमित धन राशि का सदृश्य न कर पृथ्वी से निकले धन को पृथ्वी के अन्दर ही गढ़ देता है। अतएव भगवान् महावीर ने अपरिग्रह अणुवत का निर्देशन किया है। इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत है इस व्रत की महान उपयोगिता है। इसके आन्तरिक तत्त्व को समझने की उदात्त आवश्यकता है चूँकि मनुष्य सुख और शान्ति चाहता है। महा परिग्रहवाद दुःख और अणान्ति का

— आँखें खो लो —

मूल है। आर्थिक आकांक्षा संघर्ष की स्थिर मिश्चि है। प्रतिग्रह को मूल्य महाव और संघर्ष तब तक ही है। जब तक मनुष्य लोभ की धुन में लगा रहता है। लोभ का संवरण होते ही वह ककड़ के समान लगता है। जीवन परिमित है धन अपरिमित है। लाखसा अनन्त है। इस दशा में अनियति की आकांक्षा ओपूर्ति करना असंभव है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र को शांति और सद्व्यवस्था को रक्षा के निमित्त आर्थिक लोभ का संवरण करना चाहिए। लोभ का संवरण किये बिना मनुष्यवास्तविक शान्ति का अनुभव तक नहीं कर सकता। महा परिग्रह का लाभ महा लाभ को प्रवर्त्त करता है। महा लोभ महारम्भ को जन्म देता है। महारम्भ महान् अनर्थ को पैदा करता है। महान् अनर्थ अशान्ति और उद्दिग्नता के पौष्पक हैं। यह एक संकामक रोग है। अतएव सुखार्थी मनुष्यों को इससे सावधान रहना चाहिए। लोभ की विजय का एक मात्र उपाय संतोष ही है। आकांक्षाओं को संतोष से ही पराजित किया जा सकता है, आवश्यकताओं को बढ़ाने से नहीं। अनावश्यक अर्थ-संग्रह से हिसा का प्रोत्साहन मिलता है। हिसा अपने आप नहीं प्रनप सकती। उसकी जड़ को मजबूत करने में

— आर्थिकोलोगी —

अर्थ लोलुपता का प्रमुख हाथ है। जैसे हिंसा दुर्भावना का साधन है वैसे ही परिग्रह हिंसा की दूसरों के आंधकार यद्यं स्वत्व को दड़पने का चेष्टाएँ व्यर्थ द्रव्य सञ्चय की हथ पुतली है।

परिग्रह का अनावश्यक पक्कीकरण केवल धार्मिक नियमों के प्रातःकूल नहीं अर्थात् देश और समाज के लिये भी कष्टकर है। परिग्रह का उद्योग इक्ये द्विना गृहवासियों का जीवन निर्वाह नहीं हा सकता पर उसका दुरुपयोग करना तो डाँचत नहीं। धन धान्य और भूमि जीवन की आवश्यकताओं के साधन हैं। भूख को शान्त करने के लिए अब तक है। अन्न को उपजाने के लिए धन है। धन को प्राप्त करने के लिए न्यायोचित व्यापार क्रम विक्रय का व्यवहार है। तथापि लालच रूपी आग की लपटों में सद्विवेक को नहीं झुकाने देना चाहिए। जैसा कि वर्तमान आचार्य श्री तुलसीगणी ने 'लोभ निवारण' में लिखा है। "यद्यपि धन सच्चै गृहवासी, निज कुदुम्ब पोषण को प्यासी मुश्किल यण्णो है सन्यासी, तदपि बुझाय अथाय लाय जो लालच की" ऊपर की पांक्तियों में आवश्यक धन धान्य भूमि एवं व्यापार का प्रमुख हेतु बताया गया है। लोक साधारण में इनका

— आंखें खोलो —

यही उपयोग है। इसके आर्तरक अनावश्यक धन धान्य का लंग्रह करना, अनावश्यक भू-भाग पर अधिकार जमाये रखना एवं निर्थक व्यापार द्वारा जन-साधारण का शोषण करना, आवश्यक सामग्री का दुरुपयोग है। इन कारणों से राष्ट्र और समाज के सामने घड़े २ संकट खड़े रहते हैं। उनका सहज निपटारा करना एक जाटल समस्या हो जाती है। इस वश में अध्यात्मवाद की मूल में पत्तने वाला अपारंग्रहवाद। इतना सफल बन सकता है उतना कामयाव न तो समाजवाद हो सकता है और न साम्यवाद एवं न इन जैसा कोई दूसरा बाद ही। इन सब बार्दी का निर्माण एक डंतर आह और कहण सिसकार के बाद हुआ है। इनके गम्भे में ईर्ष्या और स्पर्धा के बीज छिपे हुए हैं। इन पर स्वार्थ भावा की एक गहरी छाप है।

यह धनिक और निर्धनों के बीच होने वाला संघर्ष है। यह मजदूरों को सताये जाने का एवं गरीबों को अधिक अस्त करने का कहु परिणाम है। लोक दृष्टि से इनमें समीकरण तथा बर्गी करण का ही प्रमुख शुभ चिन्ह माना जाता है। इसके सिवाय उनमें जनता को उकसाने की एवं उच्चेजना फैलाने की भावना चैसी

— माँझे खोलो —

ही प्रवल है जैसी पूँजीचाद में हुआ करती है। जो निरापद शुद्ध और निःस्वार्थ वृति को लेकर चलने वाला कोई चाद है तो वह एक आध्यात्मचाद ही है। अपरिग्रहचाद उसी आध्यात्मचाद का एक अंग है। इसका प्रार्थ्भाव धनिकों को निधन या निर्धनों को धनिक बनाने के लिए अथवा धन का समान वैद्यारा करवाने के लिये नहीं हुआ है। असीम आशा के पजे से मनुष्यों का छुटकारा करवाने के लिये ही भगवान् महावीर ने इसको जन्म दिया है। यह सुखद सिद्धान्त उसी सतोप की देख-रेख में पलः-पुसा है जिनने बुरी तरह लोभ की लपटों में झुज्जसते हुए मनुष्य को बचाया। इसमें ईर्ष्या और स्पर्धा के लिये कोई स्थान नहीं है। इसके द्वारा कोई स्वार्थ नहीं साधा जा सकता। यह एक मात्र परमार्थ की ओर ले जाने वाला है। अपरिग्रह अणुबन्ध को अपनाने का ध्येय धन को प्राप्त करने का नहीं, किन्तु तृष्णा को जीतने का होता है। तृष्णा की विजय का यही एक वास्तविक उपाय है। 'लोभ निवारण' का एक पद्य इस पर अच्छा प्रकाश डालता है। 'लाय जो लालच की, घट २ में रही छाय; लाय जो लालच की, शांत करो संतोष सलिल से; संतों की संगति करं दिल'

— आँखें खोलो —

से, अलग रहो अत्याश अनिल से, अपर न कोई उपाय” संतोषी पुरुष ही तृप्त हो सकता है। असन्तोषी डीक इसके विपरीत परकीय अधिकारों को पाने के लिए अतृप्त और लालायित रहता है। अतएव सुख शांति को चाहने वाले प्रत्येक वाद को अपने अनुयायियों को संतोष, अपरिग्रह एवं हच्छापरिणाम का अमूल्य सबक सिखाना चाहिए। इससे सद्भज ही लोक-भावना में एक कान्तिकारी परिवर्तन होगा। पारस्परिक असमंजस को मिटाने के लिए फिर नये सिरे से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता न रहेगी।

अपने आप सब प्रकार का सुधार होता चला जायगा। परिग्रह के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने के लिए इसे नव भागों में बांटा है: जैसे— (१) क्षेत्र परिमाण- खुली जमीन का परिमाण करना चाहिए (२) वास्तु परिमाण- घर जैसी ढँकी जमीन एवं गाँव नगर और देश का परिमाण करना चाहिए। (३, ४) हिरण्य सुखर्ण परिमाण- चाँदी सोना एवं उनकी बने आभूपणों का परिमाण करना चाहिए। (५) धन परिमाण रूपये; मोहरें, सिक्के एवं वस्त्र जवाहरात आदि का परिमाण करना चाहिए। (६) धान्य परिमाण- गेहूँ, चना, जौ, मक्का आदि धान का परिमाण करना चाहिए। (७) द्विष्ट

— आँखें खोलो —

परिमाण दो पैर वाले नौकर नौकरानियों का परिमाण करना चाहिए । (८) चतुर्थ परिमाण- चार पैर, वाले हाथी, ऊँट, गाय, भैंस, घोड़े आदि का परिमाण करना चाहिए । (९) कुथ परिमाण- तांवा, लोहा, पीतल आदि धातुएँ एवं इनके बनाये वर्तन तथा घर की आवश्यक सामग्री खाट मांचा रसोई का सामान मोटर वायुयान आदि २ का परिमाण करना चाहिए । इस प्रकार परिग्रह के ये नव विभाग हैं । इनके बजान, माप, मूल्य एवं सख्त्या का परिमाण करना चाहिए । इनकी जो परिमाण किया जाय उसका अतिकमल नहीं करना चाहिए । अर्थ-सग्रह का निरोध करने से लालसा पर ताला कुञ्जी हो जाती है । उच्छ्वसलता से विहरने वाले मन को गति सीमित क्षेत्र में बंध जाती है । आवश्यकताओं का संकोच हो जाता है । यों तो मनुष्य आवश्यकता के नाम पर सब कुछ कर सकता है किन्तु आवश्यकता का अर्थ जीवन की अनिवार्य एवं उचित आवश्यकता से सम्बन्धित होना चाहिए, चूँकि अपरिग्रहवाद एक आत्मानुशासन की वस्तु है । इसमें वज्जना का जाल फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं अतएव इसको आत्मीय सदिच्छा से स्वीकार कर सरलता पूर्वक पालन करना चाहिए और

— शांखें खोलो —

यथाशक्य क्रमशः जीवन की न्यूनता के साथ २ परिग्रह का भी न्यून करने का पवित्र ध्यान रखना चाहिए । यही हमारे अपरिग्रहवाद की एक छोटी सी रूप रेखा है ।

[५]

भोग्य विरतिवाद

भोग्य विरतिवाद अपरिग्रहवाद का एक विशाल रूप है । परिग्रह दो अवस्थाओं का मध्यबर्ती है । उसकी पूर्वावस्था व्यापार और उत्तरावस्था उपभोग है । व्यापार से धन मिलता है । धन से भोग्य वस्तुरूप मिलती हैं । भोग्य वस्तुओं के दो विभाग हैं । एक तो वह खाद्य पेय जैसी वस्तुएँ, जो एक बार उपभोग की, आ सकें । दूसरा वह वस्त्र आभूपण आदि पर्याधि जिनका

— आंखें खोलो —

वार-वार उपभोग हो सके । इन दो प्रकार की उपभोग्य चस्तुओं को सीमित करने के लिए भोग्यविरति का विधान किया गया है । भोग्य पदार्थों का दुनिया में कोई शुभार नहीं । भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न वर्तुएँ उपलब्ध होती हैं । उन सबका एक मनुष्य एक दिन या एक वर्ष में तो क्या समूचे जीवन में भी उपभोग नहीं कर सकता । उनकी अधिक तृष्णा अधिक भोग मनुष्यों के लिए हितकर है । स्वास्थ्य की ओर निशाह ढालें तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो मनुष्य जितनी कम चीजें खायगा व पेशोआराम में जितना कम फंसेगा, वह उतना ही अधिक हेजस्वी, वलवान एवं स्वस्थ रहेगा । समाज की दशा को निशारने पर भी यही परिणाम निकलता है । अधिक भोगोपभोग की वेड़ियों में वन्धा रहने वाला समाज अन्दर ही अन्दर जर्जर और क्षीण होता चला जाता है । उसका आर्थिक और नैनिक पतन हो जाता है । यही दशा एक राष्ट्र और द्यक्ति का है । उनकी स्थिति को सुधारने के लिए यह व्रत एक सिद्धतन्त्र है इस व्रत से धन का अपव्यय रोका जा सकता है, आर्थिक कठिनाइयों का अन्त किया जा सकता है । रोटी और कपड़े का प्रश्न सद्बन्ध निपट सकता है । मनमानी बुराइयों का

— आंखें खोलो —

नेस्तोनावूद किया जा सकता है। अध्यात्मवाद में आत्म स्वातन्त्र्य का यह एक अचूक उपाय माना गया है। मनुष्य दैनिक, मासिक एवं वार्षिक आवश्यकताओं को भलीभाँति समझता है। फिर भी योग्य पदार्थों का अधिक संचय करने से क्या लाभ है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये विचारणीय है। अधिक संचय की भावना मनुष्यों के लिये एक धानक अस्त्र है। हर एक व्यक्ति आवश्यकता के उपरान्त भोग्य वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहता है।

फलस्वरूप वस्तु का अभाव और असम्पर्खित मूल्य-वृद्धि हो जाती है। कभी २ तो कभी कोई, कोई किसी वस्तु के लिए तो, कभी कोई वस्तु के लिए आपस में एक दूसरे के लिए दुखद वातावरण पैदा कर देते हैं। इस दशा में मनुष्यों को क्या करना उचित है। वे स्वयं समझ सकते हैं। भोग्य विरतिवाद की अनिवार्यता को हृदयङ्गम कर सकते हैं। अवश्यक संग्रह को रोकने के लिए सरकार कानून बनाती है। दण्ड विधान के अनुसार शासन विधान का उलंघन करने वाले दण्डित किये जाते हैं। चोर बाजार में सरगर्मी आ जाती है। जालसाजियों के पबड़े में अनेकों मनुष्य अपने अमूल्य मानवीय जीवन को वर्द्धित कर देते हैं। ऐसी

— आँखें खोलो —

परिस्थिति में राज्य संचालकों को भी एक नवीन दिशा की और कदम उठाना चाहिए। उन व्यापारियों एवं संग्राहकों को उनकी सत् असत् प्रवृत्ति का वोध कराना चाहिए। यदि वह अपने कार्यों को स्वयं समझ सकेंगे तो वहुधा फिर कानून एवं दण्ड प्रयोग की भी आवश्यकता न रहेगी। मनुष्य ५०-१०० या कितनी ही निश्चित अवधि के साथ जन्मा है। उसका पौद्रलिक शरीर पौद्रलिक प्रशार्थों से पाला-पोसा जाता है। मनुष्य को खाने की रोटी, पीने को पानी, पहिनने को कपड़े और रहने को मकान की आवश्यकता होती है और न तो वह धन व भाँति-भाँति की भोग्य वस्तुओं को साथ में लाया है और न स थ ले जायगा भी। मनुष्य एकाकी आता है एकाकी चला जाता है। सारे द्रव्य यों के यों पढ़े रह जाते हैं। यह अनिवार्य है, निश्चित है, सब जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। इस पर भी इतना अविवेक पूर्ण कार्य करना एक बड़ी से बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार उनकी अविचार पूर्ण प्रणाली का उनको भान कराया जाय तो उनके हृदय में विरति के अङ्कुर पत्तेंगे। यह शिक्षा जीवन के आरम्भिक कोल से ही बालकों को मिलनी चाहिये जिससे उनके संस्कार भोग प्रधान न होकर त्याग प्रधान हो सके। दण्ड-प्रणाली की अपेक्षा

— आँखें खोलो —

हितो-हित को समझने की आवश्यकता अधिक है। दरड विग्रान ऊपरी भय ऊपरी शासन है। अध्यात्मिक भान होना आंतरिक-भय आंतरिक शासन है। वाह्य-भय और वाह्य-शासन केवल वाहरी कायबाही को रोक सकता है। आंतरिक को नहीं। आंतरिक कायें की रुकावट हुऐ विना कुछ नहीं बनता। आंतरिक वुराइयों को आत्म-भय और आत्म-शासन ही रोक सकता है। अन्दर की वुराइयों को खत्म करने के बाद बाहरी वुराइयाँ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए भारतीय दाशनिकों ने अध्यात्मवाद को जीवन का प्रमुख अंग माना था। विदेशी विद्वानों ने भी विश्व के लिये अध्यात्मवाद को भारत की देन माना है। इसके लिये यह अपने को भारत का ऋणी मानते हैं। पर खेद इस धान का है कि आज भारतीय स्वर्थ इस स्वर्गीय तत्त्व को भु । कर और २ बादों क अन्वेषण में व्यस्त हैं। स्वतन्त्र भारत में अध्यात्मवाद जितना उपयोगी हो सकता है, उतना और कोई दूसरा बाद नहीं। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है, चूंकि भारतीयों की मूर्छिन चेतना में अब भी अध्यात्मवाद की प्रक गहरी भलक है। आवाल बृद्ध उसको समझने की रुचि रखते हैं। और यत् किंचित अंशों में उसे जानते भी हैं। उसके प्रति अटल

— आंखें सोलो —

अद्वा है, आत्म विश्वास है। त्रुटि सिफ इतनी ही है कि वह उसका ठीक न उपयोग करना नहीं जानते। हमें उसको उसका उपयोग करना सिखाना चाहिए। जीवन के प्रयेक सेव में उसका महत्व समझ ना जाहिये। यह एक ऐसा तत्व है जिसे भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनों निर्विवाद स्वीकार कर सकते हैं। यह लौकिक प्रथं परलौकिक दोनों दृष्टियों से उपकारी है। हमें सबसे पहले आत्म सुधार को आवश्यकता है। आत्म सुधार का एकमात्र कारण ग्रामानुशासन है। आत्मानुशासन का अर्थ है। अपनी आत्मा पर, अपने मन पर स्वयं शासन करना।

आत्मानुशासन का हेतु अध्यात्मवाद है। अतएव वह हमारे सर्वाङ्गीण सुधार का प्रबल साधन है। अध्यात्मवाद में त्याग भावन का बड़ा भारी महत्व है। इसलिये वह त्याग प्रधान कहा जाता है। त्याग एक अद्वितीय चमत्कारक पदार्थ है। उसमें व्यष्टि और समष्टि सबका हित अन्तर्विष्ट है। भोगासक्त मनुष्यों की भी सद्गति अद्वा त्याग के प्रति होती है भोग के प्रति नहीं। भोग मनुष्यों की दुर्बलता है। त्याग में पौरुष है। भोग का रूप मधुर और परिणाम कद्दु है। त्याग का रूप कठोर और परिणाम मृदु है। भोग में अशांति है, चिन्ता है, दुःख है। त्याग में सुख है, शांति है, सद्भावन।

— आंखें सोलो —

है। त्याग परम्परा का विकास होना उतना ही जरूरी है जितना किया जा सके। भोग परम्परा के विकास के लिये दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग निकाल कर रख दिया। अपनी स्वार्थ सिद्धि के निश्चित दुनिया को बहुमुखी पतन की ओर ले गये। भोग्य पदार्थों की चक्रमक में ही फैशन का जन्म हुआ आज यह कौन नहीं जानता कि फैशन के पीछे दुनिया कितनी वर्वाद हो रही है। खाने को पूरी रोटी भी नहीं मिलती पर सिगरेट पिये बिना तो नहीं रहा जा सकता। पैर खासोटने के लिये भौंपड़ी भी नहीं है तो भी सिनेमा देखे बिना तो नहीं भी नहीं आती। एक ओर बड़े-बड़े सभा पुरुष व्यर्थ की शौकिनाई में धन का अवधय कर रहे हैं तो दूसरी ओर सीधे सादे मनुष्य रोटी के लिये बिलख रहे हैं। खाने को रोटी और तन ढाँकने को पूरा करणा नहीं मिलता, क्या इसका कारण उन पदार्थों की कमी है? नहीं। यह सब भोग्य पदार्थों की उत्कट लालसा और उनके अनावश्यक संग्रह का दुष्परिणाम है। ऐसी परिस्थितियों से भोग्यविरति का उभयमुखी लाभ जनता के दुष्प्रिय हो सकता है। इसका मुख्य लाभ आत्म संयम तो है ही, किन्तु उसके साथ-साथ खाद्य, परिधेय पदार्थों की कमी का ग्रान भी हल हो जाता है। भोग्य वस्तुओं

— शांख खोलो —

है। जैन संस्कृति के आधार पर जीवन थापन करने वाला साधु-वर्ग कितना सुखी और कितना संतुष्ट है। अहिंसा, संतोष और त्याग में सुख है। यह प्रत्यक्ष है। दुनिया भर का धन उनके सामने कंकड़ है दुनिया भर का वैभव और विलासपूर्ण पेशवर्य उनके लिए कल्पनामात्र है। अध्यात्म-वाद की सच्चाई का यह एक स्पष्ट दर्शन है। यद्यपि उसका संगठन और आत्मीय अनुशासन कितना हृदयस्पष्टी है। आदर्श और अनुकरणीय है। भारत को इस छोटे किन्तु महत्वपूर्ण समाज पर दिशुद्ध गर्व हो सकता है। हर एक सामजिक या राजनैतिक संस्थाएँ इसके पेश्य एवं हृदय-नुशासन को अपनावें तो उनकी बहुत सी विकट स्थितियों का अन्त हो सकता है। इस संघ के प्रमुख नेता श्रीतुलसी गणी हैं। इनके अनुशासन में ६४१ साधु-साध्वियाँ उच्च-कोटि का अध्यात्मिक जीवन विता रहे हैं। मुनि जीवन का एकमात्र लक्ष्य अहिंसा धर्म के द्वारा आत्मशोधन करना और दूसरों को वैसा पथ दिखलाना है। हमारा इसमें अटल विश्वास और आत्मानुभव है कि जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, संतोष आदि सद्गुणों में अपने जीवन को उतारेगा वही सच्ची शान्ति और सच्चे सुख का अनुभव कर सकेगा।

